



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 16, 1989 (अग्रहायण 25, 1911)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER, 16, 1989 (AGRAHAYANA 25, 1911)

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4 (PART I—SECTION 4)

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अपरणों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 1989

सं० 1635, दिनांक 16 नवम्बर, 1989—प्रतिनियुक्ति का निश्चित कार्यकाल पूरा हो जाने/स्वीकृत छुट्टी समाप्त हो जाने पर पूर्व रक्षा राज्य मंत्री (श्री चित्तमणि पाणिग्रही) के अपर निजी सचिव, श्री एस० के० व्यवहार की सेवाएं 16 नवम्बर 1989 (पूर्वाह्न) से गृह मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

गो० भी० बडवडिगि,
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर, 1989

सं० 1636, दिनांक 30 अक्टूबर, 1989—राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्तियां करते हैं:—

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखी स्थापना में तथा तारीख से दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी

वैधानिक 'बी' के पद पर:—

क्रम सं०	नाम	स्थापना	तारीख
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	मासुरी लक्ष्मण	रक्षा अनुसंधान तथा प्रयोगशाला, हैदराबाद।	16-12-88 (पूर्वाह्न)
2.	दत्ताकुमार बलराम पेडराम	रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद	23-4-86 (पूर्वाह्न)
3.	ए० ए० अरुण	रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद	7-12-87 (पूर्वाह्न)
4.	तेलेती शिव पेटराम	रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला हैदराबाद	20-4-88 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
63.	बी० जाम्बरराज	रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोग-शाला, हैदराबाद	23-4-86 (पूर्वाह्न)
63.	बी० शिवदयाल राव	रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोग-शाला, हैदराबाद	31-3-86 (पूर्वाह्न)
73.	एन० रामा राव	रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोग-शाला, हैदराबाद	23-3-89 (पूर्वाह्न)
83.	कुमारी एल० लता	रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोग-शाला सैल, बैंगलूर	31-3-86 (पूर्वाह्न)

एम० एल० अरोड़ा,
सहायक निदेशक (कार्मिक)

सं० 1637, दिनांक 15 नवम्बर, 1989—राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्ति करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

रक्षा विज्ञान केन्द्र, दिल्ली के वैज्ञानिक 'सी' (तृतीय) श्रीमति नरसी रेड्डी को 13-2-1989 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष के लिए परखावधि पर इसी केन्द्र में अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' के पद पर।

नरसिंह दास,
सहा० निदेशक (कार्मिक)

सं० 1638, दिनांक 23 नवम्बर, 1989—राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्ति करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

2/लेफ्टिनेंट बनाया जाता है (परख पर)

डी० घनमृगानन्दम, (टी ए-42044)—इंजीनियर्स,
28 नवम्बर, 1988।

एच० डी० मिन्हा,
अवर सचिव

कोर आफ सिग्नलम

सं० 1639, दिनांक 21 नवम्बर, 1989—राष्ट्रपति महोदय श्री असीम नाग, प्रवक्ता (लेक्चरर) को सहायक प्राध्याप (असिस्टेंट प्रोफेसर) के रूप में दूरसंचार इंजीनियरी सैन्य कालेज, मद्रु में दिनांक 16 नवम्बर 1988 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

श्री असीम नाग को 10 नवम्बर, 1988 से दो वर्ष का अवधि तक परीक्षा पर रखा जाएगा।

सं० 1640, दिनांक 21 नवम्बर 1989—राष्ट्रपति महोदय श्री राम प्रकाश शर्मा, प्रवक्ता (लेक्चरर) को सहायक प्राध्याप (असिस्टेंट प्रोफेसर) के रूप में दूरसंचार इंजीनियरी सैन्य कालेज, मद्रु में दिनांक 28 नवम्बर, 1988 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

श्री राम प्रकाश शर्मा को 28 नवम्बर 1988 से दो वर्ष की अवधि तक परीक्षा पर रखा जाएगा।

ए० दयाल,
कर्मल,
निदेशक (कार्मिक)

सं० 1641, दिनांक 16 नवम्बर, 1989—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित नियुक्तियां सीधे नायब सूबेदार के रैंक में करते हैं :—

नियमित सेना

कोर आफ इंजीनियर्स

एम० ई० एस० मिलट्री कैडर

(नायब सूबेदार के रैंक में)

प्रमोद कुमार (अब जे० सी०-184815 वाई०)—
30 जुलाई, 1987।

हरीश चन्द्र,
अवर सचिव

मुख्यालय ए० टी० डी पी०

सं०, 1642 दिनांक 16 नवम्बर, 1989—श्री एम० एल० अरोड़ा, अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड 'बी' को दिनांक 27-7-89 से आगामी आदेश दिए जाने तक मशस्त्र सेना मुख्यालय आशु-लिपिक सेवा में नियमित आधार पर स्थानापन्न आशुलिपिक ग्रेड 'बी' के पद पर नियुक्त किया जाता है।

श्री टी० पी० चड्ढा आशुलिपिक ग्रेड 'सी' को दिनांक 30 जून, 1989 के बाद से दिनांक 21 दिसम्बर, 1989 तक या चयन सूची से नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, मशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में अस्थाई आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'बी' (एम० पी० ए०) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

टी० एम० स्याल,
उप मुख्य प्रशासक: अधिकारी

सं० 1643, दिनांक 21 नवम्बर, 1989—राष्ट्रपति, निम्न-
लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

कर्नल से ब्रिगेडियर के रैंक में

डी० के० दाम (एम० आर० 1123) सैनिक डाक्टरी कोर/
पी० सी० 21-7-88।

सं० 1644 तारीख 21-11-89 राष्ट्रपति, निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

कोर आफ इंजीनियर्स

एम० ई० एस० मिलिट्री केडर

(सुबेदार के रैंक में)

नायब सुबेदार अमरजीत सिंह (जे० सी०-126367
एच०)-01 मार्च, 1989।

नायब सुबेदार दर्शन सिंह (जे० सी०-75948 वाई०)-
01 मार्च, 1989।

नायब सुबेदार सुखदेव सिंह (जे० सी०-126285—
01 मई, 1989।

नायब सुबेदार ग्राम सिंह (जे० सी०-125006
एफ०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार पोल ब्रामकर (जे० सी०-125765
एफ०)-01 मई 1989।

नायब सुबेदार श्रीरेंद्र सिंह रावत (जे० सी०-123652
ए०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार मोहम्मद मोविन खान (जे० सी०-123598
एफ०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार सरबालोगा भयाणागन (जे० सी०
124999 वाई०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार मेडावरपु कुर्मा राव (जे० सी०-
125000 ए०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार बूटा राम (जे० सी०-123592
डब्ल्यू०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार केथामबडी युथाथ रवीन्द्राय (जे० सी०-
123655 एन०)-02 मई, 1989।

नायब सुबेदार परमा नन्द (जे० सी०-125786
एफ०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार बी कडलप्पा (जे० सी०-64234
एन०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार सुबास चन्द्र मनपत काले (जे० सी०
65607 ए०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-74818
पी०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार सुर्या बली सिंह यादव (जे० सी०-
74923 ए०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार वसन्त पाटिल (जे० सी०-77564
एच०)-01 मई, 1989।

नायब सुबेदार नाजर सिंह (जे० सी०-79166
ए०)-01 मई 1989।

नायब सुबेदार सन्तोष सिंह (जे० सी०-125764
वाई०)-01 जून, 1989।

नायब सुबेदार जगदीश कुमार (जे० सी०-123653
एच०)-01 जून, 1989।

नायब सुबेदार कान्नीमुथु सेल्वाभाथन (जे० सी०-
123579 एम०)-01 जून, 1989।

नायब सुबेदार चानन सिंह (जे० सी०-125001
एच०)-01 जून, 1989।

नायब सुबेदार सुत्रामनियन वेलियधरा जे० सी०-
123642 डब्ल्यू०)-01 जून, 1989।

नायब सुबेदार नाल्लूबीडूपरमेश्वरन चन्द्रासेखरन कुरुप
(जे० सी०-123636 एच०)-01 जून, 1989।

नायब सुबेदार हृत्नामण्डा हृत्नामण्डा मनागुली जे० सी०-
65815 पी०) 01 जून 1989।

नायब सुबेदार एस० धंगाराजन (जे० सी०-81496
एफ०)-01 जून, 1989।

नायब सुबेदार एम० नारायणा पिल्ले (जे० सी०-86334
डब्ल्यू०)-01 जून, 1989।

नायब सुबेदार यणवंत हुनरे (जे० सी०-93098
एच०)-01 जून, 1989।

नायब सुबेदार राम धन (जे० सी०-95490 एफ०)
01 जून, 1929।

नायब सुबेदार हुमन सिंह (जे० सी०-93658 के०)
01, जून, 1989।

नायब सुबेदार परमात्मा सिंह (जे० सी०-93057
वाई०)-01 जून, 1989।

नायब सुबेदार लक्ष्म सिंह (जे० सी०-84588 पी०)
01 जून, 1989।

नायब सुबेदार बोण्णाता सम्बामिवा राव (जे० सी०
95777 वाई०)-01 जून, 1989।

नायब सुबेदार बचना राम (जे० सी०-74169 के०)
01 मई, 1989।

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

सुबेदार मेजर के रैंक में

सुबेदार गुरुदेव सिंह (जे० सी०-84508 एम०)
01 जून, 1989।

सुबेदार प्रदीप कुमार चौधरी (जे० सी०-84026
एफ०)-01 जुलाई, 1989।

सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में
सूबेदार क्लर्क जी० डी० अमर सिंह (जे० सी०-78395
वाई०)-01 जून 1989।

सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) निर्मल सिंह (जे० सी०
77961 एक्स०)-01 अगस्त, 1989।

सूबेदार के रैंक में (जी० डी०)

नायब सूबेदार राम आसरे सिंह (जे० सी०-14938
एल०)-01 फरवरी, 1989।

नायब सूबेदार त्रिलोचन सिंह (जे० सी०-140939
एन०)-01 फरवरी, 1989।

नायब सूबेदार सुन्दर लाल (जे० सी०-142126
डब्ल्यू०)-01 मार्च, 1989।

नायब सूबेदार भजन सिंह (जे० सी०-140945
पी०)-01 मार्च, 1989।

नायब सूबेदार प्रिथी चन्द (जे० सी०-140982
पी०)-01 अप्रैल, 1989।

नायब सूबेदार क्याम सिंह (जे० सी०-140906 एन०)
01 मई, 1989।

नायब सूबेदार मनसा राम (जे० सी०-140967 एच०)
01 जून, 1989।

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जे० सी०-142123
एच०)-01 जून, 1989।

नायब सूबेदार हरचरण सिंह (जे० सी०-142127
वाई०)-01 जून, 1989।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-140983
एक्स०)-01 जून, 1989।

नायब सूबेदार गणेश चन्द (जे० सी०-140952
एक्स०)-01 जून, 1989।

नायब सूबेदार राम विलास प्रसाद (जे० सी०-142125
एन०)-01 जून, 1989।

नायब सूबेदार जवाहर सिंह (जे० सी०-140988
डब्ल्यू०)-01 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार वलीप सिंह (जे० सी०-140968
एल०)-01 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार देवी दीन (जे० सी०-142157
डब्ल्यू०)-01 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार कृष्णा चन्द (जे० सी०-140958
ए०)-01 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार मेजर सिंह (जे० सी०-140962-
एफ०)-01 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार बक्सोश सिंह (जे० सी०-142121
एक्स०)-01 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जे० सी०-140975
वाई०)-01 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह सन्धू (जे० सी०-140909
डब्ल्यू०)-01 अगस्त 1989।

नायब सूबेदार गुरदयाल सिंह (जे० सी०-140954
एच०)-01 अगस्त, 1989।

सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) जादाव चन्द्र बैरागी
(जे० सी०-119822 एफ०)-01 मार्च 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) जसमेर सिंह
(जे० सी०-116302 एक्स०)-01 मई 1979।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) दिनेस चन्द्र पन्त
(जे० सी०-116164 पी०) 01 मई 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) राज कुमार देव
(जे० सी०-121146 डब्ल्यू०)-01 मई 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) जीयो लाल राम
(जे० सी०-116396 एन०)-01 जून 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) इन्द्रा नन्द सिंह
(जे० सी०-116391 पी०)-01 जून 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) छन्दजीत राए
(जे० सी०-119828 एच०)-01 जून 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) सभावपती त्रिपाठी
(जे० सी०-121120 एफ०)-01 जून 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०)-बाला राम चन्द्र दास
(जे० सी०-121155 एक्स०)-01 जून 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) गृणशन कुमार
(जे० सी०-121147 वाई०)-01 जुलाई 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) पृथ्वी सिंह (जे० सी०-
119824 एम०)-01 जुलाई 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) राम रतन सिंह नेगी
(जे० सी०) 105525 एच०)-01 अगस्त 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) उलफत सिंह चौहान
(जे० सी०-121149 के०)-01 अगस्त 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) शुभ नारायण सिंह
(जे० सी०-122809 एच०)-01 अगस्त 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) हेम राज (जे० सी०-
121118 ए०)-01 अगस्त 1989।

सूबेदार सर्वे के रैंक में

नायब सूबेदार विश्व नाथ सिंह (जे० सी०-145642
वाई०)-01 जून 1989।

नायब सूबेदार सर्वे बलबीर सिंह (जे० सी०-154141
वाई०)-01 जून 1989।

नायब सूबेदार सर्वे ईश्वर दयाल सिंह (जे० सी०-
156632 एम०) 01 जून 1989।

नायब सूबेदार सर्वे गोविन्द राम (जे० सी०-119820 डब्ल्यू०)-01 जुलाई 1989 ।

नायब सूबेदार सर्वे लक्ष्मी नारायण परमानिक (जे० सी०-159382 एम०)-01 अगस्त 1989 ।

हरिप्रसाद,
अवर सचिव

कोर आफ सिगनल्स

सूबेदार मेजर (वाई आफ एस) के रैंक में

सूबेदार सुरजभान त्यागी (जे० सी० 73813 वाई०)-
01 सितंबर 1989 ।

सूबेदार रतन चन्द (जे० सी०-73818 एक्स०)
01 सितंबर 1989 ।

सूबेदार मेजर (एफ आफ एस) के रैंक में

सूबेदार चरन दास सैनी (जे० सी०-73818 के०)-
01 सितंबर 1989 ।

सूबेदार प्रियम सिंह (जे० सी०-79623 एफ०)-
01 सितंबर 1989 ।

सूबेदार केशव देव शर्मा (जे० सी०-79626 डब्ल्यू०)
01 सितंबर 1989 ।

सूबेदार मेजर (ओ पी साईफर) के रैंक में

सूबेदार फलेकोडे रामा स्वामी ससादरी (जे० सी०-71792 पी०)-01 जून 1989 ।

सूबेदार कुलतार चन्द कटोच (जे० सी०-71793 एक्स०)-01 सितंबर 1989 ।

सूबेदार जय शंकर तिवारी (जे० सी०-71802 एन०)-01 सितंबर, 1989 ।

सूबेदार मेजर (ओ० पी० स्पेशल) के रैंक में

सूबेदार राम शिरिन्द्र मोहता (जे० सी०-107167 एफ०)-01 सितंबर, 1989 ।

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार राम गोपाल त्रिपाठी (जे० सी०-87147 के०)-01 सितंबर, 1989 ।

सूबेदार टी डी जाज कुट्टी (जे० सी०-88985 एल०)-01 सितंबर 1989 ।

टी० वी० नायर, डैस्क अधिकारी

कोर आफ इन्जीनियर्स

एम० ई० एस० मिलिट्री केडर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार गुरबक्श राम (जे० सी०-54033 वाई०)-
01 मई, 1989 ।

सूबेदार अब्दुल रहमान अब्दुल मूथालिक (जे० सी०-
86394 एल०)-01 मई, 1889 ।

सूबेदार सन्तोष सिंह (जे० सी०-80187 एच०)-
01 मई, 1989 ।

सूबेदार डाटला कनका राजू (जे० सी०-54357 के०)-01 जून 1989 ।

सूबेदार अक्षरवादन प्वालाला जोहन विल्सम (जे० सी०-
54880 पी०)-01 जून, 1989 ।

सूबेदार हरी ओंकार कालिया (जे० सी०-63738 एम०)-01 जून, 1989 ।

सूबेदार दरया सिंह (जे० सी०-42572 एच०)-
01 जून 1989 ।

सूबेदार गिब्रान्त मिश्रा. (जे० सी०-79942 पी०)-
01 जून 1989 ।

सूबेदार वासुदेवन नायर एम आर (जे० सी०-79305 वाई०)-01 जून 1989 ।

सूबेदार ब्यालाल प्रेम मोहन (जे० सी०-79313 एक्स०)-01 जून 1989 ।

सूबेदार पांडुरंग गावास (जे० सी०-61107 एल०)-
01 जून, 1989 ।

बंगाल इन्जीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेजर आत्मा सिंह (जे० सी०-83194 के०)-01 मई, 1989 ।

सूबेदार त्रिलोक सिंह बिष्ट (जे० सी०-83201 पी०)-01 मई, 1989 ।

सूबेदार श्रीना नाथ (जे० सी०-83197 एक्स०)-
01 मई, 1989 ।

सूबेदार नन्द किशोर (जे० सी०-84507 के०)-
01 मई, 1989 ।

सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

नायब सूबेदार सर्वे सत्यानन्दन प्रसाद (जे० सी०-
101533 के०)-01 फरवरी 1989 ।

नायब सूबेदार सर्वे गजेन्द्र सिंह (जे० सी०-142232 पी०)-01 मार्च, 1989 ।

नायब सूबेदार सर्वे अजीत सिंह जे० सी०-101534 एच०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार सर्वे जय नारायण सिंह (जे० सी०-
142236 एल०)-01 मई, 1989 ।

बम्बई इंजिनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार नारायण पालणे (जे० सी०-82396 एल०)-01 मई, 1989 ।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार रामा नन्ध (जे० सी०-79296 ए०)-01 नवम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार जनक राज (जे० सी०-91725 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जे० सी०-119383 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार गुरदयाल सिंह (जे० सी०-114212 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार मखम सिंह (जे० सी०-121044 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार रस्तन सिंह (जे० सी०-111646 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार गौतम चन्द (जे० सी०-111647 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार बैकटराजी नालवाडे (जे० सी०-111669 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार कृष्णा भाषव (जे० सी०-111648 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार वाजीराओ शिन्दे (जे० सी०-119373 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार शिवाजी पाव (जे० सी०-110374 ए०)-01 अप्रैल 1989 ।

नायब सूबेदार सावन सिंह (जे० सी०-111670 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार सुच्चा सिंह (जे० सी०-111649 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार इन्द्र सिंह (जे० सी०-114209 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार बालू पाटील (जे० सी०-111672 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार बुध सिंह (जे० सी०-114265 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार जीत सिंह (जे० सी०-82511 ए०)-01 अप्रैल, 1989 ।

सूबेदार गंगाधरन नायर सी (जे० सी०-84127 ए०)-01 मई, 1989 ।

सूबेदार रविन्द्रन नाथन नायर (जे० सी०-84128 ए०)-01 मई, 1989 ।

सूबेदार सोपन जाधव (जे० सी०-84797 ए०)-01 मई, 1989 ।

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-84129 ए०)-01 मई, 1989 ।

सूबेदार लाल चन्द (जे० सी०-84130 ए०)-01 मई, 1989 ।

हरिश चन्द, अवर सचिव

नोपखाना रेजिमेन्ट

सब्सटैन्टिव सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी/एस० के टी) के पद में सूबेदार कुशीरोदन धनंजन (जे० सी०-99578 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

सूबेदार राय सिंह यादव (जे० सी०-99582 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

सूबेदार सर्वजीत नारायण पराशर (जे० सी०-98989 पी० 05 सितंबर, 1989)।*

*(सब्सटैन्टिव सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता 01 अगस्त 1989 से दी जाती है)

सूबेदार सरदार सिंह दलवान (जे० सी०-102985 वाय०)-01 अगस्त, 1989

सब्सटैन्टिव सूबेदार (क्लर्क जी डी/एस के टी) के पद में नायब सूबेदार आत्मा सिंह प्रेवाल (जे० सी०-136771 पी०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जे० सी०-136692 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार नंजन चेटियार मुन्वरन (जे० सी०-136693 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार कुंवर बहादुर सिंह (जे० सी०-136772 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार यू० चिन्नाप्पा (जे० सी०-139207 ए०)-01 अगस्त 1989 ।

नायब सूबेदार तुलसीदास प्रधान (जे० सी०-136694 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार शंकर देवाजी पाटील (जे० सी०-134777 ए०)-01 अगस्त 1989 ।

नायब सूबेदार साम्बूल मोसम (जे० सी०-134778 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार पी० एन० मुकुमारन नायर (जे० सी०-134779 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार जगमाल सिंह (जे० सी०-136774 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार वि० सयाप्पा (जे० सी०-136775 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार मीथला ओरवमकारा दामोदरन नायर (जे० सी०-136776 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार दौलत राम (जे० सी०-136778 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जे० सी०-136779 एफ०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार भवानी सिंह राठौर (जे० सी०-136781 वाय०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार बली राम सिंह (जे० सी०-136782 एफ०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार विजय सिंह वर्मा (जे० सी०-134880 एक्स०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार सी० वी० अकेकजन्दर (जे० सी०-132647 डब्ल्यू०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार शम्भू देव यादव (जे० सी०-139208 एन०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार जी० वी० गोपाला पिल्ले (जे० सी०-139209 डब्ल्यू०)-01 अगस्त 1989 ।

नायब सूबेदार परस राम (जे० सी०-139211 एन०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार भूतम पाडियन गोपाला कृष्णन (जे० सी०-139212 डब्ल्यू०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार राधा कृष्णन नायर (जे० सी०-139213 वाय०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार कोमिषथोडियल प्रभाकरन (जे० सी०-139214 एफ०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार हरबन्स सिंह थिरा (जे० सी०-139215 के०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार रंगासामी नायकर सवारी राजन (जे० सी०-139216 एम०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार सत्य नारायन सिंह (जे० सी०-139219 ए०)-01 अगस्त, 1989 ।

नायब सूबेदार पञ्चमपल्लिल कुंजन पनीकर गोपीनाथा पिल्ले (जे० सी०-139221 ए०); 01 अगस्त, 1989 ।

रिमाउन्ट वेटरिनरी कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार (रॉइडर) शिव नन्दन सिंह (नं० 7236391 एम० जब आर वी 7678 डब्ल्यू०)-25 अगस्त, 1989*

*क्षेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना प्येष्ठता 24 जून 1989

दफादार (क्लर्क) जोर्ज के टी (नं० 7236232 पी० अब आर० वी० 7679 वाई०)-01 अगस्त, 1989

दफादार (ड्रैसर) भरत सिंह (नं० 7236319 डब्ल्यू० अब आर० वी० 7680 एन०)-09 अगस्त, 1989*

*क्षेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना प्येष्ठता 01 अगस्त 1989

दफादार (ड्रैसर) दीवान चन्द (नं० 7236268 एन० अब आर वी 7681 डब्ल्यू०)-09 अगस्त, 1989 ।

दफादार (ड्रैसर) राम अवध यादव (नं० 7236597 के० अब आर वी 7682 वाई०)-01 अगस्त, 1989 ।

अनिल कुमार, अवर सचिव

कोर आफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार मोहिन्यर सिंह (जे० सी०-84131 एन०)--1 जून, 1989 ।

सूबेदार यश पाल (जे० सी०-87003 एफ०)--1 जून, 1989 ।

सूबेदार नछत्तर सिंह बिरदी (जे० सी०-86375ए०)--1 जून, 1989 ।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार कौर सिंह (जे० सी०-108214 ए०)--1 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार धरम सिंह (जे० सी०-111638 एफ०)--1 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार नीलकण्ठ डांगे (जे० सी०-111652 एन०)--1 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार प्रकाश सिंह (जे० सी०-116364 एल०)--1 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार विलबाग सिंह (जे० सी०-116432 एन०)--1 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार साधु सिंह (जे० सी०-116433 डब्ल्यू०)--1 मई, 1989 ।

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जे० सी०-116434 वाई०)--1 जून, 1989 ।

नायब सूबेदार रामचन्द्रा वर्मा (जे० सी०-119786 पी०)--1 जून, 1989 ।

नायब सूबेदार इन्द्रजीत सिंह (जे० सी०-119787 के०)--1 जून, 1989 ।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार तारा सिंह बागरिआ (जे० सी०-99442 वाई०)--1 अप्रैल, 1989 ।

नायब सूबेदार दत्तात्रे बोकाळे (जे० सी०-121048 डब्ल्यू०)--1 मई, 1989 ।

नायब सूबेदार केशव विघाते (जे० सी०-121087 पी०) 1 मई, 1989 ।

नायब सूबेदार वासुदेव सिंह (जे० सी०-124299 एल०)-1 मई, 1989 ।

नायब सूबेदार साधु सिंह (जे० सी०-124394 एक्स०)--1 जून, 1989 ।

सूबेदार (एस० के० टं०) के रैंक में

नायब सूबेदार जगीर सिंह गिल (जे० सी०-124382 एच०)--1 जून, 1989।

मद्रास इन्जीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क माधवन नायर चन्द्रशेखरन नायर (जे० सी० 69146 वार्ड०)--1 मई, 1989।

सूबेदार क्लर्क सी० रंगास्वामी (जे० सी०-627380 ए०)--1 जुलाई, 1989।

सूबेदार क्लर्क अनंथाप्पा अलगरसामी (जे० सी० 63072 वार्ड०)--1 जुलाई, 1989।

सूबेदार क्लर्क नत्तुवन्निपरम्पिल औगुस्ती जोसेफ जे० सी० 66969ए०)--1 जुलाई, 1989।

सूबेदार क्लर्क धेनके पारयथु गोपाल पिल्लै रवीन्द्रन पिल्लै (जे० सी०-66972 ए०)--1 जुलाई, 1989।

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार जी० डी० कुन्दन (जे०सी०-66213 ए०)--1 अप्रैल, 1989।

सूबेदार जी० डी० ए० आनन्दन (जे०सी०-78815 पी०)--1 जुलाई 1989।

सूबेदार मेजर एस के टी के रैंक में

सूबेदार एसकेटी कृष्णन पिल्लै गोपीनाथन पिल्लै (जे० सी०-96624 ए०)--1 जुलाई 1989।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क कथम मरियाप्पन (जे० सी०-116338 के०)--1 जुलाई 1989।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार जी० डी० मुजीब साहिब (जे० सा०-128716 के०)--1 जून, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० अन्नाहम (जे०सी०-1423078 ए०)--1 जुलाई 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० जाकोब मुबालि डेविड (जे० सी० 123001 के०) 1 जुलाई 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० मरियाप्पा जयराम कृष्णन (जे० सी० 129008के०) 1 जुलाई 1989

नायब सूबेदार जी० डी० आर० राधाकृष्णन (जे० सी०-128706 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० केशवपिल्लै सोमन नायर (जे० सी०-130514 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० जी० भणि (जे० सी०-128667 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० मदारि वेलायुधन (जे० सी०-133424 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० राजु नायगर शनमुगम (जे०सी०-128670 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० मपरनाथकरन औसेफ जोज (जे० सी०-128671 पी०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० करुवनकोत थोडिडल पञ्चनाथन (जे० सी०-128673 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० कलायमणि (जे० सी०-128674 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० लेभण पिल्लै थिरुवन्ना मारभा पिल्लै (जे० सी०-128676 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० सेलवामणि (जे० सी०-128677 डब्ल्यू०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० नाटेशन मुन्नामूर्थी (जे० सी०-128678 वार्ड०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० ग्रोकियस्वामी किरिसिलुवथं (जे० सी०-128720 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० रीबटं राजु (जे० सी० 128721 पी०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० वडिवेलु (जे० सी०-128722 ए०) 1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० गबरिडल हसाक (जे० सी०-128681 वार्ड०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० कन्द मुन्नामनियन चन्द्रशेखरन (जे० सी०-128724 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० अभ्युधन नायर रामकृष्णन (जे० सी०-128682 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० वेलाकरन जगनाथन (जे०सी०-128683के०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० अन्थोनी स्वांमी (जे० सी०-128725 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० गोविन्दराजसु (जे०सी०-128726 ए०)--1 जुलाई, 1989।

नायब सूबेदार जी० डी० रामगोंडर वोरार्डस्वामी (जे० सी०-130151के०)--1 जुलाई, 1989।

सूबेदार क्लर्क कोरमकन्ड्या वालियावीटिल कृष्णन कुट्टी नायर (जे० सी० 67626 के०), 01 अप्रैल 1989।

सूबेदार क्लर्क एस० एस० आरुमुगा पेरुमाल (जे० सी० 67627 ए०), 01 अप्रैल 1989।

सूबेदार क्लर्क वालियावीटिल पप्पु जार्ज (जे० सी०-69179 के०), 01 मई 1989।

सूबेदार क्लर्क नन्दगोपालन जयरामन (जे० सी० 78337 पी०), 01 मई 1989।

सूबेदार क्लर्क रवीन्द्रन (जे० सी० 80156 ए०), 01 मई 1989।

सूबेदार क्लर्क मुडावायाहल मोहम्मद अली (जे० सी० 80159 एच०), 01 मई 1989।

सूबेदार क्लर्क चेल्लायु जोसेफ (जे० सी० 82373 एक्स०), 01 जून 1989।

सूबेदार क्लर्क रंगदास (जे० सी० 81870 पी०), 01 जून 1989।

सूबेदार क्लर्क श्रीरंगम वेंकटा सुब्बाराव (जे० सी० 81855 ए०), 01 जून 1989।

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार जी० डी० पद्मनारायण मन्हाचेरी लक्ष्मणन अदियोडी (जे० सी० 68240 डब्ल्यू०), 01 मई 1989।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क पोन्नुस्वामी मुब्रमाणयन (जे० सी० 99584 डब्ल्यू०), 01 मार्च 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क वेलायुधन पिल्लै रामकृष्णा पिल्लै (जे० सी० 101072 एल०), 01 अप्रैल 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क अचन कुंजु (जे० सी० 101303 डब्ल्यू०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क पेरियासामी अडाइक्कन (जे० सी० 102308 एफ०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क विश्वनाथन नायर (जे० सी० 119794 ए०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क गंगान्नागरी चेंगप्पा (जे० सी० 102307 वाई०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क नीलकण्ठन राघवन (जे० सी० 116353 वाई०), 01 जून 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क कादिरवेल पिल्लै सामीकन्नु (जे० सी० 116354 एफ०), 01 जून 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क कन्नीयोथ गोविन्दन कुट्टी (जे० सी० 116355 के०), 01 जून 1989।

नायब सूबेदार क्लर्क पदसनभन पातीकर माधव कुम्पे (जे० सी० 116356 एम०) 01 जून 1989।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी० डी०) चेल्लन पेरुमाल (जे० सी० 121310 एन०) 01 नवम्बर 1988।

नायब सूबेदार (जी० डी०) एम० सत्यनारायन (जे० सी० 121305 एच०) 01 नवम्बर 1988।

नायब सूबेदार (जी० डी०) रामा रेड्डी वामुदेव रेड्डी (जे० सी० 127287 एफ०), 01 अप्रैल 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) कुट्टला मेनथा अव्युतन (जे० सी० 129727 एच०), 01 अप्रैल 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) वोयालोला नरसिंहलु (जे० सी० 126306 पी०), 01 अप्रैल 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) सेल्लन रामासामी (जे० सी० 126307 एक्स०), 01 अप्रैल 1989।

2-374 GI/89

नायब सूबेदार (जी० डी०) उन्नीकुण्णन ओराली (जे० सी० 129003 एल०), 01 अप्रैल 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) नन्दी डेविड (जे० सी० 129737 एम०), 01 अप्रैल 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मुनिरत्नम रामामूर्ति (जे० सी० 129004 एन०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) कृष्णन (जे० सी० 129739 एक्स०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) गंगाधरन (जे० सी० 129005 डब्ल्यू०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) एम० रंगराज (जे० सी० 129740 एम०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) अलगरवामी (जे० सी० 129741 पी०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) नारायणन नायर रामकृष्णन नायर (जे० सी० 128703 एच०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) पारप्पा मानागुली (जे० सी० 129006 वाई०) 01 मई 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) वन्दीकरननायगम वनाथियन (जे० सी० 129007 एफ०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) रहिमान बेग (जे० सी० 128704 पी०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) डेनियल जोन कुन्जु (जे० सी० 129746 एन०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) देवरास्ती पौलो (जे० सी० 130513 वाई०), 01 मई 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) गोदेती सोलोमन धर्मारजू (जे० सी० 129747 डब्ल्यू०), 01 जून 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) थिलायुल्लाथिल भारथन (जे० सी० 129748 वाई०), 01 जून 1989।

नायब सूबेदार (जी० डी०) दुगाइ सामी कोदन्डाथानी (जे० सी० 129749 एफ०), 01 जून 1989।

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ललिता प्रसाद (सं० 1402502 एल० अब जे० सी० 184742 एक्स०), 24 अक्तूबर 1988।*

हवलदार कुलदीप सिंह (सं० 1449521 एफ० अब जे० सी० 184743 ए०), 22 अक्तूबर 1988।*

हवलदार ईश्वर सिंह (सं० 1450553 डब्ल्यू० अब जे० सी० 184744 एच०), 24 अक्तूबर 1988।*

हवलदार रनबीर सिंह (सं० 1449982 एन० अब जे० सी० 184745 एल०), 31 अक्तूबर 1988।*

हवलदार परनाम सिंह (सं० 1451187 के० अब जे० सी० 184746 एन०), 01 नवम्बर 1988।*

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1988 से दी जाएगी)

हवलदार जगदीश राम (सं० 1451195 एच० अब जे० सी० 184747 डब्ल्यू०), 07 जनवरी 1989 ।”

हवलदार कल्याण सिंह (सं० 1451354 पी० अब जे० सी० 184748 वाई०), 06 फरवरी 1989 ।”

हवलदार हीरा लाल (सं० 1451417 एम० अब जे० सी० 184749 एफ०), 26 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार कल्पनाथ सिंह (सं० 1451343 एच० अब जे० सी० 184750 डब्ल्यू०), 03 जनवरी 1989 ।”

हवलदार बलवान राम (सं० 1450843 एम० अब जे० सी० 184751 वाई०), 20 जनवरी 1989 ।”

हवलदार दरवान सिंह (सं० 1402638 पी० अब जे० सी० 184752 एफ०), 22 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार सेत बन्धू चौबे (सं० 1451139 के० अब जे० सी० 184753 के०), 01 जनवरी 1989 ।”

हवलदार मना राम (सं० 1401010 एल० अब जे० सी० 184754 एम०), 14 जनवरी 1989 ।”

हवलदार मोहन चन्द्र (सं० 1402260 एन० अब जे० सी० 184755 पी०), 12 जनवरी 1989 ।”

हवलदार अम्बर बहादुर थापा (सं० 1403353 पी० अब जे० सां० 184756 एक्स०), 11 फरवरी 1989 ।”

हवलदार गोरख सिंह (सं० 1450168 एम० अब जे० सी० 184757 ए०), 18 मार्च 1989 ।”

हवलदार शारा राम (सं० 1450796 एफ० अब जे० सां० 184758 एच०), 13 जनवरी 1989 ।”

हवलदार भवान सिंह (सं० 1450925 डब्ल्यू० अब जे० सी० 184759 एल०), 28 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार रघुनार सिंह (सं० 1451222 पी० अब जे० सी० 184760 ए०), 26 जनवरी 1989 ।”

हवलदार राम प्यारें सिंह (सं० 1451278 एच० अब जे० सी० 184761 एच०), 30 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार रुयाली दत्त जोशी (सं० 1451303 एफ० अब जे० सां० 184762 एल०), 22 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं० 1451539 डब्ल्यू० अब जे० सी० 184763 एन०), 26 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार गोपाल सरन सिंह (सं० 1451547 पी० अब जे० सी० 184764 डब्ल्यू०), 27 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार चन्द्रोका प्रसाद सिंह (सं० 1451637 डब्ल्यू० अब जे० सी० 184765 वाई०), 31 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार सीताराम (सं० 1443610 के० अब जे० सी० 184766 एफ०), 07 जनवरी 1989 ।”

हवलदार पूरन सिंह (सं० 1402781 पी० अब जे० सी० 184767 के०), 22 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार विनोद प्रसाद (सं० 1402709 एल० अब जे० सी० 184768 एल०), 29 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार गुरुबख्श सिंह (नं० 1402720 के० अब जे० सी० 184769 पी०), 30 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार सुन्दर सिंह (नं० 1402757 एल० अब जे० सी० 184770 के०), 27 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार निर्मल चन्द्रा (सं० 1402729 वाई० अब जे० सी० 184771 एम०), 27 जनवरी 1989 ।”

हवलदार खूब राम (सं० 1050672 ए० अब जे० सी० 184772 पी०), 31 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार प्रह्लाद कुमार सिंह (सं० 1451866 पी० अब जे० सां० 184773 एक्स०), 23 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार मगीन चन्द्रा तालुकदार (सं० 1451803 वाई० अब जे० सां० 184774 ए०), 22 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार श्रीनिवास उपाध्याय (सं० 1402802 एम० अब जे० सां० 184775 एच०), 05 जनवरी 1989 ।”

हवलदार नारायण दत्त तिवारा (सं० 1442229 के० अब जे० सां० 184776 एल०), 26 दिसम्बर 1988 ।”

हवलदार जय सिंह (सं० 1442794 एफ० अब जे० सी० 184777 एन०), 22 जनवरी 1989 ।”

”(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी) ।

हवलदार दल बहादुर चन्द (सं० 1443844 पी० अब जे० सां० 184778 डब्ल्यू०), 28 फरवरी 1989 ।”

हवलदार सुबोध चन्द्रा जुवाल (सं० 1450788 एम अब जे० सां० 184779 वाई०), 31 मार्च 1989 ।”

हवलदार राजेन्द्र पाल सिंह (सं० 1457300 के० अब जे० सी० 184780 एन०), 28 मार्च 1989 ।”

हवलदार राम स्वरूप (सं० 1451335 डब्ल्यू० अब जे० सां० 184781 डब्ल्यू०), 31 मार्च 1989 ।”

हवलदार सुजान सिंह (सं० 1444137 डब्ल्यू० अब जे० सी० 184782 वाई०), 30 मार्च 1989 ।”

हवलदार तारा चन्द (सं० 1445987 एम० अब जे० सी० 184783 एफ०), 06 अप्रैल 1989 ।”

हवलदार गंगा दत्त (सं० 1446024 एम० अब जे० सी० 184784 के०), 11 मार्च 1989 ।”

”(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1989 से दी जाएगी) ।

हवलदार जसवन्त सिंह (सं० 1401908 एम० अब जे० सी० 184785 एम०), 30 मार्च 1989 ।@

हवलदार खड्क सिंह (सं० 1401931 ए० अब जे० सी० 184786 पी०), 31 मार्च 1989 । @

हवलदार भानु देव (सं० 1402184 एम० अब जे० सी० 184787 एक्स०), 03 अप्रैल 1989 ।@

हवलदार हरनेक सिंह (सं० 1454095 एच० अत्र जे० सी०-184788 ए०), 28 मार्च 1989।@

हवलदार शांघर सिंह (सं० 1449942 के० अब जे० सी०-184789 एच०), 31 मार्च 1989।@

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1989 से दी जाएगी।)

हवलदार दया शंकर सिंह (सं० 1440888 ए० अब जे० सी०-184790 एच०), 28 मार्च 1989।E

हवलदार अमर मित्र (सं० 1401611 ए० अब जे० सी०-184791 ए०), 31 मार्च 1989।E

हवलदार भगनाथ मित्र (सं० 1444933 वाई० अब जे० सी०-184792 एच०), 28 मार्च 1989।E

हवलदार सबोध नागायण मित्र (सं० 1401980 एच० अब जे० सी०-184793 ए०), 31 मार्च 1989।E

हवलदार श्रीरा बल्लभ (सं० 1402017 डब्ल्यू० अब जे० सी०-184794 ए०), 28 मार्च 1989।E

हवलदार ध्यारा सिंह (सं० 1402551 ए० अब जे० सी०-184795 डब्ल्यू०), 01 मार्च 1989।E

E (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1989 से दी जाएगी।)

हवलदार दिवान सिंह (सं० 1447944 डब्ल्यू० अब जे० सी०-184796 वाई०), 03 अप्रैल 1989।E

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1989 से दी जाएगी।)।E

नायब सूबेदार कलक के रैंक में

हवलदार कलक अशोक मवरील (सं० 1449101 ए० अब जे० सी०-184797 ए०), 21 अक्टूबर 1988।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी।)

हवलदार कलक अन्तार सिंह (सं० 1540108 वाई० अब जे० सी०-184798 के०), 07 मार्च 1989।" "

हवलदार कलक रोहनाथ सिंह (सं० 1449222 ए० अब जे० सी०-184799 ए०), 19 नवम्बर 1988।" "

" " (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1988 से दी जाएगी।)

हवलदार कलक सुरेन्द्र चन्द (सं० 1449007 के अब जे० सी०-184800 डब्ल्यू०), 30 जनवरी 1989।%%

हवलदार कलक नन्द किशोर सिंह यादव (सं० 1449326 के अब जे० सी०-184801 वाई०), 21 जनवरी 1989।%%

हवलदार कलक प्रेमा नन्द डे (सं० 1449345 पी० अब जे० सी०-184802 ए०), 03 दिसम्बर 1988।%%

हवलदार कलक शेषराम प्रेमी (सं० 1449329 ए० अब जे० सी०-184803 के०), 27 दिसम्बर 1988।%%

हवलदार कलक नीरंग लाल (सं० 1449284 ए० अब जे० सी०-184804 ए०), 20 फरवरी 1989।%%

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार कलक एस० के० टी० के रैंक में

हवलदार ए० के० टी० सिंघाशन सिंह (सं० 1448414 ए० अब जे० सी०-184805 पी०), 09 जनवरी 1989।@@

हवलदार एस० के० टी० शिवनाथ सिंह (सं० 1448812 पी० अब जे० सी०-184806 ए०), 06 फरवरी 1989।@@

हवलदार एस० के० टी० शमशेर मित्र (सं० 1448852 डब्ल्यू० अब जे० सी०-184807 ए०), 09 फरवरी 1989।@@

हवलदार एस० के० टी० सुरजभान (सं० 1449108 ए० अब जे० सी०-184808 ए०), 03 फरवरी 1989।@@

हवलदार एस० के० टी० नित्यानन्द मित्र (सं० 1447946 ए० अब जे० सी०-184809 ए०), 26 फरवरी 1989।@@

@ @ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार कलक स्टोर के रैंक में

हवलदार कलक स्टोर लक्ष्मी मित्र (सं० 1442310 डब्ल्यू० अब जे० सी०-184810 ए०), 12 फरवरी 1989।EE

हवलदार कलक स्टोर सुखदेव शर्मा (सं० 1447150 ए० अब जे० सी०-184811 ए०), 28 फरवरी 1989।EE

EE (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार सर्वे के रैंक में

हवलदार सर्वे बलदेव सिंह (सं० 1449373 ए० अब जे० सी०-184812 ए०), 15 मार्च 1989।E&&

हवलदार सर्वे वल्लभ पाल सिंह (सं० 1448867 वाई० अब जे० सी०-184813 ए०), 24 फरवरी 1989।E&&

E&& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1986 से दी जाएगी।)

हवलदार सर्वे लछमन सिंह (सं० 1449062 ए० अब जे० सी०-184814 डब्ल्यू०), 01 मार्च 1989।***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1989 से दी जाएगी।)

एम० ई० एस० मिलट्री केडर

(नायब सूबेदार के रैंक में)

हवलदार गोपालन रामचन्द्रन नायर (1356429 डब्ल्यू० अब जे० सी०-184816 ए०), 10 अप्रैल 1989।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 1988 से दी जाएगी।)

मन्नास इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार कलक (जी० डी०) के रैंक में
हवलदार कलक (जी० डी०) रवीन्द्रन रामकृष्णन नायर

(सं० 1351750 डब्ल्यू० अब जे० सी०- 184817 के०), 01 दिसम्बर 1988 ।*

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) कन्दामामी चिन्नप्पा (सं० 1352307 पी० अब जे० सी०- 184818 एम०), 11 दिसम्बर 1988 । *

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) गुडुरु वारा प्रसाद राव (सं० 1351081 एन० अब जे० सी०- 184819 पी०), 01 दिसम्बर 1988 । *

* (एक्सलेरटेड पदोन्नति और नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अक्टूबर 1988 से दी जाएगी) ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) मुत्तूनामी कन्दामामी (सं० 1352582 पी० अब जे० सी०- 184820 के०), 01 नवम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) रेन्टला मानिक्या राव (सं० 1351501 एल० अब जे० सी०- 184821 एम०), 01 नवम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) प्रभाकरा वडक्केडथ गोपाल कृष्ण कुरूप (सं० 1350382 ए० अब जे० सी०- 184822 पी०) 19 नवम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) मुरुगप्पन शन्मुगम (सं० 1350677 डब्ल्यू० अब जे० सी०- 184823 एम०), 19 नवम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) करिकाटू अन्नाहम जेकव (सं० 1350738 एच० अब जे० सी०- 184824 ए०), 19 नवम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) बालन योग्याक्कारा (सं० 1350271 एच० अब जे० सी०- 184825 एच०), 19 नवम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) प्लामकोटातिल कुष्ण कैमल गोपीनाथन पिरलइ (सं० 1350740 ए० अब जे० सी०- 184826 एल०), 01 दिसम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) महथप्पन स्वामिनाथन (सं० 1350799 ए० अब जे० सी०- 184827 एन०), 01 दिसम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) अन्फेड डी सोजा (सं० 1350864 पी० अब जे० सी०- 184828 डब्ल्यू०), 01 दिसम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) अरवा वेंकप्पा (सं० 1351453 एच० अब जे० सी०- 184829 वाई०), 01 दिसम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) पेरुमाल कन्दन (सं० 1351513 एम० अब जे० सी०- 184830 एन०), 01 दिसम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) मुडी रेडी वेंकटाडरी (सं० 1351538 वाई० अब जे० सी०- 184831 डब्ल्यू०), 01 दिसम्बर 1988 ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) कट्टी कोटारप्पा वीरा संगप्पा (सं० 1352265 एन० अब जे० सी०- 184832 वाई०), 06 दिसम्बर 1988 । @

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी) ।

हवलदार क्लर्क (जी० डी०) सफानी नन्द कुमार (सं० 1352548 पी० अब जे० सी०- 184833 एफ०), 01 दिसम्बर 1988 ।

नायब सूबेदार एम० के० टी० के रैंक में

हवलदार क्लर्क एम० के० टी० कृष्णावेलार मंगेसन (सं० 1353093 डब्ल्यू० अब जे० सी०- 184834 के०), 5 अक्टूबर 1988 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार (जी० डी०) सीतल जयवर्षु (सं० 1352871 के० अब जे० सी०- 184835 एम०), 01 दिसम्बर 1988 ।

हवलदार (जी० डी०) अप्पावू मनोहरन (सं० 1353539 ए० अब जे० सी०- 184836 पी०) 23 दिसम्बर 1988 ।*

हवलदार (जी० डी०) वी० वेलायुदम (सं० 1360522 पी० अब जे० सी०- 184837 एम०) 08 जनवरी 1989 ।%

हवलदार (जी० डी०) पान्डुरू सुरिवावू (सं० 1352820 डब्ल्यू० अब जे० सी०- 184838 ए०) 09 दिसम्बर 1988 ।%

हवलदार (जी० डी०) जी अशोक कुमार (सं० 1352954 पी० अब जे० सी०- 184839 एच०) 01 नवम्बर 1988 ।

हवलदार (जी० डी०) सिथिरेड्डी जनार्दना राव (सं० 1358957 वाई० अब जे० सी०- 184840 एम०) 01 नवम्बर 1988 ।

हवलदार (जी० डी०) वेंचिकाडु कुरियन पाइलो (सं० 1355312 एल० अब जे० सी०- 184841 ए०) 13 जनवरी 1989 ।%

हवलदार (जी० डी०) कोन्चा सुबाइर कुट्टी (सं० 1355382 के० अब जे० सी०- 184842 एच०) 01 दिसम्बर 1988 ।%

हवलदार (जी० डी०) शान्ताकुमार टी (सं० 1361754 ए० अब जे० सी०- 184843 एल०) 01 नवरी 1989 ।ई

हवलदार (जी० डी०) जेन्लन नायर ममुदुन कुरूप (सं० 1355370 पी० अब जे० सी०- 184844 एन०), 01 दिसम्बर 1988 ।

हवलदार (जी० डी०) दबदाका जोयप्पा पोन्नप्पा (सं० 1357196 एम० अब जे० सी०- 184845 डब्ल्यू०), 01 दिसम्बर 1988 ।

हवलदार (जी० डी०) सन्नानम अरपुतम (सं० 1354952 एच० अब जे० सी०- 184846 वाई०), 01 दिसम्बर 1988 ।

हवलदार (जी० डी०) एम० मुनिस्वामी (सं० 1356971 एम० अब जे० सी०- 184847 एफ०), 01 दिसम्बर 1988 ।

हवलदार (जी० डी०) ए० मार्टिन (सं० 1356997 एफ० अब जे० सी०- 184848 के०), 06 जनवरी 1989 ।ई

हवलदार (जी० डी०) चेन्ना रेड्डी वीरा शंकरा राव (सं० 14521566 ए० अब जे० सी०-184849 एम०), 14 फरवरी 1989।†

हवलदार (जी० डी०) मूर्ति (सं० 1358277 वाई० अब जे० सी०-184850 एफ०), 01 दिसम्बर 1988।

हवलदार (जी० डी०) ए० रमन (सं० 1359184 डब्ल्यू अब जे० सी०-184851 के०), 16 जनवरी 1989।

हवलदार (जी० डी०) श्रीधरन एम० (सं० 1358452 एच० अब जे० सी०-184852 एम०), 30 दिसम्बर 1988।

हवलदार (जी० डी०) प्लावदिल नारायणन नायर विक्रमन नायर (सं० 1356008 एन० अब जे० सी०-184853 पी०), 01 दिसम्बर 1988।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1988 से दी जाएगी)।

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1988 से दी जाएगी)।

‡(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी)।

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (क्लर्क स्टोर) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क स्टोर) तीर्थ सिंह (सं० 1535643 पी० अब जे० सी०-184854 एक्स०), 10 जनवरी 1989।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

हवलदार (एस० के० टी०) श्री चान्द (सं० 1537003 के० अब जे० सी०-184855 ए०) 07 मार्च 1989।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार (एस० के० टी०) लम्बड़ सिंह (सं० 1536800 एच० अब जे० सी०-184856 एच०), 01 मार्च 1989।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1989 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) महिन्दर राम (सं० 1533705 एल० अब जे० सी०-184857 एल०), 16 जनवरी 1989।*

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) गंगा सिंह भाटी (सं० 1541116 के० अब जे० सी०-184858 एन०), 25 जनवरी 1989।*

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) मुन्शी सिंह (सं० 1540432 डब्ल्यू० अब जे० सी०-184859 डब्ल्यू०), 10 मार्च 1989।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) सतपाल सन्धु (सं० 1540450 वाई० अब जे० सी०-184860 एल०), 01 फरवरी 1989।**

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) जसनेल सिंह (सं० 1540461 एल० अब जे० सी०-184861 एल०), 29 मार्च 1989।***

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) बलवीर सिंह (सं० 1540475 एल० अब जे० सी०-184862 डब्ल्यू०), 02 फरवरी 1989।***

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) राम गोपाल (सं० 1540469 एक्स० अब जे० सी०-184863 वाई०), 09 फरवरी 1989।***

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) राम बहादुर (सं० 1540602 पी० अब जे० सी०-184864 एफ०), 13 फरवरी 1989।***

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) ध्याम जी मिश्रा (सं० 1540661 एफ० अब जे० सी०-184865 के०), 07 मार्च 1989।***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) बलदेव सिंह (सं० 1538647 डब्ल्यू० अब जे० सी०-184866 एम०), 02 फरवरी 1989।****

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) महिन्दर सिंह (सं० 1540592 डब्ल्यू० अब जे० सी०-184867 पी०), 02 फरवरी 1989।****

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) पुष्पाल सिंह भाटीया (सं० 1540532 एफ० अब जे० सी०-184868 एन०), 28 फरवरी 1989।****

हवलदार (क्लर्क जी० डी०) जगदीश चन्द्र शर्मा (सं० 1540562 वाई० अब जे० सी०-184869 ए०), 04 मार्च 1989।****

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1989 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार (जी० डी०) जगदाले जोती साहेबराव (सं० 1541454 एफ० अब जे० सी०-184870 पी०), 16 दिसम्बर 1988।*

हवलदार (जी० डी०) केशव पवार (सं० 1565521 ए० अब जे० सी०-184871 एक्स०), 21 जनवरी 1989।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार (जी० डी०) सोहन सिंह (सं० 1565634 एच० अब जे० सी०-184872 ए०), 24 दिसम्बर 1988।**

हवलदार (जी० डी०) करन बहादुर चन्द (सं० 1541016 वाई० अब जे० सी०-184873 एच०), 14 जनवरी 1989।**

हवलदार (जी० डी०) नसर अहमद (सं० 1533727 के० अब जे० सी०-184874 ए०), 19 जनवरी 1989।**

हवलदार (जी० डी०) गरमेल सिंह (सं० 1539957 ए० अब जे० सी०-184875 ए०), 21 जनवरी 1989।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार (जी० डी०) अल्लादीन खान (सं० 1538878 ए० अब जे० सी०-184876 डब्ल्यू०), 17 फरवरी 1989।***

हवलदार (जी० डी०) पाल सिंह (सं० 1565672 वाई० अब जे० सी०-184877 वाई०), 17 फरवरी 1989।***

हवलदार (जी० डी०) हीरा सिंह (सं० 1538643 ए० अब जे० सी०-184878 ए०), 20 फरवरी 1989।***

हवलदार (जी० डी०) राय सिंह (सं० 1539108 ए० अब जे० सी०-184879 के०), 20 फरवरी 1989।***

हवलदार (जी० डी०) हरभजन सिंह (सं० 1539142 ए० अब जे० सी०-184880 वाई०), 21 फरवरी 1989।***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1989 से दी जाएगी)।

हवलदार (जी० डी०) मंगतराम कौंजे (सं० 1565630 ए० अब जे० सी०-184881 ए०), 11 फरवरी 1989।****

हवलदार (जी० डी०) विलाम मुर्वे (सं० 1539532 पी० अब जे० सी०-184882 के०), 13 फरवरी 1989।****

हवलदार (जी० डी०) प्रीतम सिंह (सं० 1541205 ए० अब जे० सी०-184883 ए०), 18 फरवरी 1989।****

हवलदार (जी० डी०) दलबीर सिंह (सं० 1538059 ए० अब जे० सी०-184884 पी०), 20 फरवरी 1989।****

हवलदार (जी० डी०) अर्जुन प्रसाद (सं० 1539757 ए० अब जे० सी०-184885 ए०), 20 फरवरी 1989।****

हवलदार (जी० डी०) कमरुल हसन खान (सं० 1565530 ए० अब जे० सी०-184886 ए०), 20 फरवरी 1989।****

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1989 से दी जाएगी)।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

(जी० एस० शाखा)

सं० 1645, दिनांक 24-11-1989—नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर श्रीमती प्रीति चन्द्रा, प्राध्यापिका (जापानी), विदेशी भाषा विद्यालय, रक्षा मंत्रालय, को 20-10-89 (अपराह्न) स नफरी से हटा दिया गया।

टी० एम० स्याल

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

सं० 1646 तारीख 15-11-89 विस्फोटक अनुसंधान या विकास प्रयोगशाला, पुणे क वैज्ञानिक "सी" श्री म० एस० फ़ैसलकार के सेवा-निवृत्ति की अयु० पर हुंघने के फलस्वरूप वे 30-9-1989 (अपराह्न) से नि-निवृत्ति हुए और 01-10-89 (पूर्वाह्न) से पेंशन शायना को स्थानान्तरित किए गए।

सं० 1647, दिनांक 24-11-89—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके आगे लिखित स्थितियों से उनके आधारण निवृत्ति की आयु के प्राप्त करने पर सेवा की सेवा निवृत्त करते हैं।

नियमित सेना स्टाई कमीशन

1. ले० कर्नल पृथ्वी नाथ (आई० सी० 8575 ०)—सिख 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

2. ले० कर्नल बंश प्रकाश (आई० सी०-16170 कम०)—सिख 31 मार्च, 89 (अपराह्न)

3. ले० कर्नल आर आर जाधव (आई० सी०-8604 ए०)—जी आर 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

4. ले० कर्नल एस० बी० खन्का (आई० सी०-8839 ए०)—जैकरीफ 31 मार्च 89 (अपराह्न)

5. ले० कर्नल (टी० ए०) डी० बी० फादकर (आई० सी०-12495 के०)—जी आर 31 मार्च 89 (अपराह्न)

6. ले० कर्नल (टी० ए०) गुरदेव सिंह (आई० पी०-14599 ए०) पंजाब 31 मार्च, 89 (अपराह्न)

7. ले० कर्नल (टी० ए०) टी एम० गिल (आई० पी०-18049 वाई०)—पंजाब 31 मार्च 1989 (अपराह्न)

8. ले० कर्नल (टी० ए०) डी० एस० ब्रिह्मन (आई० सी०-18089 ए०)—जैकरीफ 31 मार्च 89 (अपराह्न)

9. ले० कर्नल (टी० ए०) बलदेव सिंह (आई० सी०-18879 पी०) पंजाब 31 मार्च 1989 (अपराह्न)

10. ले० कर्नल (टी० ए०) पी० ए० शर्मा (आई० सी०-20494 डब्ल्यू०)—गारडस 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

11. ले० कर्नल (टी० ए०) गुरदयाल सिंह (आई० सी०-22150 डब्ल्यू०) गरनेडीयरस 31 मार्च 1989 (अपराह्न)

12. ले० कर्नल (टी० ए०) ए० एस० कोहली (आई० सी०-12492 डब्ल्यू०) पंजाब 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

13. ले० कर्नल ए० जी० सोन्डोलकर (आई० सी० 15183 वाई०) ए० ओ० सी० 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

14. ले० कर्नल रजनी कान्त अतरो (आई० सी०-8578 एक्स०)-ए० ओ० सी० 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

15. ले० कर्नल (टी० एस०) जे० एस० बेदी (आई० सी०-11974 एक्स०) ए० एम० ई० 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

16. ले० कर्नल (टी० एस०) क० एल० वेदहर (आई० सा०-13870 डब्ल्यू०) ई० एम० ई० 31 मार्च 1989 (अपराह्न)

17. ले० कर्नल वा एस० शुक्ल (आई० सी०-21412 पी०) ई० एम० ई० 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

18. मेजर जे० एस० नेहरा (आई० सा०-22912 वाई०)-ए० ओ० सा० 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

19. ले० कर्नल जा आर भारद्वाज (आई० सा०-15383 पी०)-सिग्नल 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

20. ले० कर्नल (टी० एस०) डी एम० राय आई० सी०-15773 एक्स०) सिग्नल 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

21. ले० कर्नल (टी० एस०) क० एन० पी० बा० नायर (आई० सा०-21400 ए०) ए० ई० सा०-31 मार्च 1989 (अपराह्न)

22. ले० कर्नल (टी० एस०) श्री कृष्णा (आई० सा०-22492 क०)-ईन्ट कोर 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

23. ले० कर्नल (टी० एस०) आर० एन० रहेजा (आई० सा०-22497 एच०) ए० ई० सी०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

24. ले० कर्नल (टी० एस०) चन्द्रशेखरन नायर वा, आर सा० (आई० सा०-22552 एन०) ए० ई० सी०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

25. ले० कर्नल के० एस० नानडल (वा० 146 एन०)-आर० वा० सी० 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

26. ले० कर्नल के० सी० नाली (आई० सा०-15237 पी०) ए० एस० सी०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

27. ले० कर्नल (टी० एस०) पी० एस० असरोटागा (आई० सी०-15226 एच०) ए० एस० सा०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

28. ले० कर्नल (टी० एस०) सीताराम (आई० सी० 15315 एफ०)-ए० एस० पी०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

29. ले० कर्नल हनुमान सिंह (आई० सी०-15332 एफ०)-ए० एस० सी०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

30. ले० कर्नल (टी० एस०) क० एन० राजपूत (आई० सी०-18575 एक्स०)-ए० एस० सा०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

31. कर्नल नरेन्द्ररा सिंह (आई० सी०-12852 एफ०)-आर्टी 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

32. ले० कर्नल हल्लू सिंह (आई० सी०-15588 ०)-आर्टी 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

33. ले० कर्नल वा० पी० क० नायर (आई० सा० 8926 एफ०)-आर्टी 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

34. ले० कर्नल काफ जेका (आई० सा०-11913 रु०-इंजिनियर्स 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

35. ले० कर्नल (टी० एस०) एम० एन० दत्त आई० सा०-11634 डब्ल्यू० आर्टी 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

36. ले० कर्नल (टी० एस०) वा० क० भारद्वाज (आई० सा०-21935 एन०)-आर्टी 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

37. ले० कर्नल (टी० एस०) ए० एस० यादव (आई० सा०-11629 एल०)-आर्टी 21 मार्च, 1989 (अपराह्न)

38. ले० कर्नल (टी० एस०) डी० एस० उषल (आई० सा०-15593 एन०)-आर्टी 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

39. ले० कर्नल (टी० एस०) वेदी (आई० सी०-2184 डब्ल्यू०)-इंजिनियर्स 21 मार्च 1989 (अपराह्न)

40. मेजर जे० क० फूकन (आई० सी०-18937 ए०)-आर्टी-31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

41. ले० कर्नल पी० वा० चौपड़ा (आई० सा० 1430 वाई०)-इंजिनियर्स 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

42. कर्नल वा कृष्ण राव (आई० सा०-13103 एक्स०)-इंजिनियर्स 21 मार्च, 1989 (अपराह्न)

43. कर्नल एस० पी० शर्मा (आई० सा०-10051 एफ०)-आर्टी 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

44. कर्नल सी० एस० पी० कृष्णन नायर (एस० एल०)-1136 डब्ल्यू०)-ए० पी० टी० सा०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

45. ले० कर्नल धर्मपाल सिंह (एस० एल०-1308 ए०)-ए० एम० 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

46. मेजर धर्मपाल (एस० एल०-1830 एच०)-सिग्नल 31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

47. मेजर पी० जे० उमेन (एस० एल० 1845 एल०)-क्यू० एम०)-31 मार्च, 1989 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) डी०आर० फटोच (एस०एल०) 1413-डब्ल्यू) आर० ओ०—31 मार्च 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) एस०आर० कोल्हाटकर (एस० एल०—1964 एफ) आर०ओ०—31 मार्च 89 (अपराह्न)

मेजर एस०एन० दत्ता (एस०एल०—1871 एम) इजी-नियर्स—31 मार्च 89 (अपराह्न)

मेजर शंकर दास सवाल (एस० एल० 190७-एच) क्यू० एम—31 मार्च 89 (अपराह्न)

मेजर वी० डी० मोहन (एस०एल०—1947 एफ) इजी-नियर्स—31 मार्च 89 (अपराह्न)

मेजर कौंडा वेंकटा कोटेश्वर राव (एस० एल०—2207 वाई) आर० ओ०—31 मार्च 89 (अपराह्न)

मेजर ताराचन्द्र (एस०एल०—2262 पी) ए०पी० टी०सी०—31 मार्च 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल जे० बी० एस० वहवा (आई० सी०—8598 एल) कुमाऊं—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल डी०एस० साचर (आई०सी०—10448 एन) जैक रिफ—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल धर्मपाल (आई० सी०—10484 वाई) गार्ड्स—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

कर्नल पी०एस० सिद्धू (आई० सी०—11692 ए) सीख एल० आई०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल कृष्णचन्द्र (आई० सी०—20150 एक्स) जैक रिफ—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल सुखी चन्द, एस० सी० (आई० सी०—12530 एफ) राजरीफ—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल पृथी सिंह (आई० सी०—13896 एल) जाट—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) नारिन्दर सिंह (आई० सी०—10572 बी) राजपूत—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) वी० के० कौल, एस० सी० (आई०सी०—11642 पी) बिहार—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) प्रेम सिंह (आई० सी०—12006 एन) जाट—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) गुरुदयाल सिंह (आई० सी०—13974 एक्स) जैक रिफ—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल पी० ए० बालिया (आई० सी०—14526 एक्स) डोंगरा—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) जे० एन० शर्मा (आई० सी०—15991 डब्ल्यू)—4 जन० आर० 30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) दरयासिंह (आई० सी०—18106 पी) सिख—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) इन्द्र सिंह (आई० सी०—20714 पी) डोंगरा—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) आर० के० मल्होत्रा (आई०सी०—21078 वाई) महार—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) पी० बी० आर० राजा (आर० सी०—21431 ए) मद्रास—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

कर्नल टी० एन० मेहता (आई० सी०—13350 एच) ई०एम०ई०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल एल० एन० एस० मयूरानाथास (आई० सी०—20954 एम) ई०एम०ई०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल एम० विक्रमन नायर (आई० सी०—14119 पी) ए०ओ०स०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल एस० के० कौल (आई० सी०—20202 एच) ए०ओ०स०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) जे० एस० अधवा (आई० सी०—22621 वाई) ए०ओ०सी०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) टेक चन्द शर्मा (आई० सी०—14982 एच) ए०ओ०सी०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एन० एस० एम० बिल्लन (आई० सी०—20067 ए) ए०सी०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) कर्नेल सिंह (आई० सी०—14882 एक्स) ई०एम०ई०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

कर्नल टी०एस० कोहला (आई० सी०—12005 एल) सिगनल्स—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल जे० एस० कन्डाह (आई० सी०—21785 एच) सिगनल्स—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) एस० आर० यादव (आई० सी०—20474 एच) इन्ट कोर—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) रघुनाथ सिन्हाधे (आई० सी० 15299 पी) ए०एस०सी०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) ए० एस० सिद्धू (आई० सी०—22519 डब्ल्यू) ए०एस०सी०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल वा०एल० सचदेवा (आई० सी०—10511 एक्स) ए०एस०सी०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल सिंह मोहकाम (आई० सी०—20615 एम) ए०एस०सी०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल हरचरण सिंह (आई० सी० 18753 पी०) ए० एस०सी० 30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल एम० एस० साहदरा (आई०सी० 21469 के) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) कृष्णपाल सिंह (आई०सी०—15353 एक्स) ए० एस०सी०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) बी० एम० सिन्धु (आई० सी० 18977 पी) ए०एस० सी०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) अलिकुट्टी बालियादन (आई० सी० 15303 एम०) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल पी० डायस (आई० सी० 18365 एक्स) आर्टी 30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल आर० चन्द्रसेखरन (आई० सी० 20433 वाई) आर्टी 30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल जे० एस० तुलसी (आई० सी० 21692 आर्टी—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल ओमकार (आई० सी० 22067 बाई) आर्टी—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) हरबंससिंह (आई० सी० 15593 पी) आर्टी 30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) इकबाल सिंह (आई० सी०—18920 ए) आर्टी—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) मनमोहन सिंह (आई० सी०—21116-के) आर्टी—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) आर० पी० शर्मा (आई० सी०—21432 एच) आर्टी—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) तेजा सिंह (आई० सी०—22347 एम) आर्टी—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) डी०एस० आहूजा (आई० सी०—21264 पी) आर्टी—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

मेजर टी० एल० नैयर (आई० सी०—22678 एन) आर्टी—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल पी० प्रभुधन (एस०एल०—1397 के) आर०ओ०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

मेजर ए० एस० सिद्धू (एस०एल०—1443 एन) आर०ओ०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

मेजर के०एस० सुमन्त (ए० एल०—1661 एम) आर०ओ०—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

मेजर श्रीरघोड़ी बेनुगोपाल (एस०एल०—1915 बाई) इजीनियर्स—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

कप्तान के० आर० चौधरी (एस०एल०—2308 एम) सिग्नल्स—30 अप्रैल 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) डी०आर० सचदेव (आई० सी०—20840 एफ) ए०एस०सी०—31 मार्च 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) आर०एल० आर्या (आई० सी०—15276 एन) ए०एस०सी०—31 मई 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) ओ० सी० शर्मा (आई० सी०—15319 एक्स) ए०एस०सी०—31 मई 89 (अपराह्न)

मेजर एम० के० पेन्डिआल (आई० सी०—22217-के) ए०एस०सी०—31 मई 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) एच०एस० ब्रैच (आई० सी०—22315 के) ए०एस०सी०—31 मई 89 (अपराह्न)

कर्नल मान सिंह (आई० सी०—15323 ए) ए०एस०सी०—31 मई 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) एल०एम० ग्लाडस्टोन (आई० सी०—14091 ए) ए०एस०सी०—31 मई 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) सी०के० मलिक (आई० सी०—18618 एफ) ए०एस०सी०—31 मई 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) मोहन सिंह (आई० सी०—18732 बाई) ए०एस०सी०—31 मई 89 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) बी० जे० खरोद (आई० सी०—13851 एल) इजीनियर्स—31 जून 88 (अपराह्न)

एस०के० कौसल, कर्नल
कर्नल एम० एस० सेवा निवृत्ति व विमुक्ति

सं० 1648, दिनांक 21-11-89 — राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को अधिवर्ष आयु प्राप्त करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
स्थाई आयोग

ले० कर्नल पी०के० हाजरा (एम० आर०—1018) मै निक् डाक्टरी कोर/पी०सी०—30-6-89 (अपराह्न)

ले० कर्नल के०एल० कचरू (एन०टी० आर०—16176) सैनिक डाक्टरी कोर/एन०टी०—31-5-89 (अपराह्न)

ले० कर्नल एच० एस० झाला (एन०टी०आर०—16110) सैनिक डाक्टरी कोर/एन०टी०—31-3-89 (अपराह्न)

ले० कर्नल बलवन्त सिंह (एन०टी०आर० 16060) सैनिक डाक्टरी कोर/एन०टी०—30-6-89 (अपराह्न)

सं० 1649, दिनांक 21-11-89— निम्नलिखित अफसर को उनकी प्रार्थना पद समय पूर्व सेवा से निवृत्त होने तथा उनका स्वानान्तरण अफसरों की नियमित रिजर्व (श्रेणी एकम) में करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
स्थाई आयोग

कर्नल ए० चक्रवर्ती (एम० आर०—1607) सेना चिकित्सा कोर/पी०सी०—15-6-89 (अपराह्न)

ले० कर्नल आर०के० गर्ग (एम०आर०—3258) सेना चिकित्सा कोर/पी०सी०—4-8-89 (अपराह्न)

ले० कर्नल एम० डी० बचाराजनी (एम०आर०—2318) सेना चिकित्सा कोर/पी०सी०—30-6-89 (अपराह्न)

ले० कर्नल जे०जे०एस० भल्ला, बी०एस० एम०, एम०सी० (एम०आर०—3275) सेना चिकित्सा कोर/पी०सी०—30-4-89 (अपराह्न)

ले० कर्नल आर०के० तिवारी (एम०आर०—2081) सेना चिकित्सा कोर/पी०सी०—5-4-89 (अपराह्न)

ले० कर्नल बी०ए० फाडके (एम०आर०—2031) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०—2-7-89 (अपराह्न)

ले० कर्नल क० कुमार (एम० आर०—1486) सेना चिकित्सा कोर/पी०सी०—31-5-89 (अपराह्न)

उमा शंकर भार्गव
मेजर जनरल उप० म० नि० स० से० चि० से०

नौसेना विभाग

सं० 1650, दिनांक 20-11-89—राष्ट्रपति श्री रामनाथ, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी को 01 अगस्त 89 (पूर्वाह्न) से नौसेना भंडार अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. बं दो वर्ष के लिए परखाधीन रहेंगे।

दिलीप कुमार
उपनिदेशक (कामिक)

वायु शाखा

सं० 1651, दिनांक 16-11-89—राष्ट्रपति वा० से० अनुदेश 2/73 के उपबंधों के अन्तर्गत निम्नलिखित को पायलट अफसर के रैंक में अल्पकालिक सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रिकल)

संजीव कुमार (सं० 19060)—07 सितम्बर 87 से।

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

गिरिश श्रीकांति हं (सं० 19100)—07 सितम्बर 87 और
नानक कुमार (सं० 19118)—28 सितम्बर 87 से।

सं० 1652, दिनांक 23-11-89—राष्ट्रपति वा० से० अनुदेश 20/76, 28/76 तथा वा० से० अनु० (शुद्धि पत्र) 7/78 तथा 13/81 के अन्तर्गत निम्नलिखित को पायलट अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

(भूतपूर्व वायु सैनिक पायलट अफसर के रूप में)

635900 कार्पोरल गंगाधरन नायर हरिहरन (सं० 19472)—17 दिसम्बर 88 से।

बी० यू० पिल्लै
स्क्वा० लीडर।

सहा० निदेशक का एफ 3 (बी)

सं० 1653, दिनांक 23-11-89—राष्ट्रपति निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

शिक्षा शाखा

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक में

के०के० अशिष्ठ (सं० 9361)—31-8-85

पदक्रम सूची में इनका नाम विंग कमांडर यू० बी० एम० महीदीपति (9357) शिक्षा और डी० डी० देशपाण्डे (9374) शिक्षा के बीच आयेगा।

ओ० एम० पाण्डे (सं० 9171)—01-2-87

जेड० ल्हो एस० मल्होत्रा (सं० 9342)—01-1-88

यू०के० बैस्या (सं० 9372)—31-1-88

एस०पी० रघुवंशी (सं० 9373)—01-7-88

यू०पुष्पोल (सं० 9904)—01-7-88

एम०पी० अग्निहोत्री (सं० 9926)—01-7-88

जी०के० निगम (सं० 9928)—01-9-89

पी०सी० त्रिपाठी (सं० 9930)—01-2-89

वी०बी० सुभ्रामानियम (सं० 10292)—01-3-89

के०एस० आनन्द राव (सं० 10340)—31-3-89

पी० व्यास (सं० 10342)—01-4-89

ए० सी० राय चौधरी (सं० 6660)—11-4-89

टी०एस० धामी (सं०-8351)—01-5-89

वैमा इंजी० शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की विंग कमांडर के मूल रैंक में

बी०एस० शर्मा (सं० 6849) वैमा० इंजी० (इलेक्ट)—
01-3-86

इनका नाम पदक्रम सूची में विंग कमांडर ए०एस० तण्डी (सं० 6840) वैमा० इंजी० (इलेक्ट) के ऊपर आयेगा।

एस०बी० वैद्यनाथन (सं० 9149) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—26-8-86

एच०पाल (आवकाश प्राप्त) (सं० 8260) वैमा० इंजी० (इलेक्ट)—26-8-86

एस०पी० पदमानाभन (सं० 8272) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—26-8-86

वी०के० कपूर (सं० 8251) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—
26-8-86

एस०सी० सिंह (सं० 8517) वैमा० इंजी० (इलेक्ट)—
26-8-86

एल० जी० सिंह (सं० 8514) वैमा० इंजी० (इलेक्ट)—
26-8-86

रवि चन्द्रन (सं० 8516) वैमा० इंजी० (इलेक्ट) —
26-8-86

आर० सी० सिंह (सं० 9598) वैमा० इंजी० (इलेक्ट)—
26-8-86

वी०एस० माल (आवकाश प्राप्त) (सं० 9602) वैमा० इंजी० (इलेक्ट)—26-8-86

यू० सुरे (सं० 8223) वैमा० इंजी० (इलेक्ट)—28-8-
1986

ए०यू० मुद्दयदरी (सं० 8811) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)
29-8-86

एस०आर० राव (सं० 8799) वैमा० इंजी० (इलेक्ट)—
01-9-86

आर०के० सेठी (सं० 8007) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—
09-9-86

जे०के० जैन (सं० 7963) वैमा० इंजी० (इलेक्ट) —
15-9-86

कालानिक बरिष्ठता 06-6-86 से तथा इनका नाम पदक्रम सूची में विंग कमांडर इकबाल सिंह (सं० 8801)

वैमा० इंजी० (इलैक्ट) तथा ए० शंकरन (सं० 7991) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी) के बीच आयगा।

वी०एन० बंसल (अवकाश प्राप्त) (सं० 7994) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—15-9-86

बी०आर० सहगल (अवकाश प्राप्त) (सं० 9620) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—15-9-86

एच०डी० तन्वानी (अवकाश प्राप्त) (सं० 7983) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—15-9-86

पी०एस० प्रोवर (सं० 8238) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—15-9-86

चांद सागर (सं० 7987) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—15-9-86

एस० श्रीनिवास राव (सं० 8894) वैमा० जो० (इलैक्ट) 16-9-1986

ओ० पी० सतीश (सं० 8812) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—15-9-86

ए० सुवामा (सं० 9281) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

एस० जय चन्द्रन (सं० 7751) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

के०एम० कुलकर्णी (सं० 8296) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

के० एस० शाह (सं० 9279) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

एम०के० सीधारामू (सं० 8906) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

एस०एन० बंसल (सं० 10356) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—15-9-86

सी० जी० कृष्णा (सं० 9390) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—15-9-86

वी०एच० राजू (अवकाश प्राप्त) (सं० 9691) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—16-9-86

एस०सूरी (सं० 9341) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

ए०एम० खन्ना (सं० 8845) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

जी० बैकटरमन (अवकाश प्राप्त) (सं० 10675) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

एच० एस० माहलुवालिया (सं० 10676) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

सी० सी० जेम्स (सं० 9957) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

आर० के० भंडारी (सं० 9947) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

पी० जगन्नाथन (सं० 8920) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

एन० एम० नायक (अवकाश प्राप्त) (सं० 9952) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

आर० वी० श्री खण्ड (सं० 10328) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

एम० के० भटाचार्य (सं० 10317) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

वी०के० तिवारी (सं० 10319) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

एच० सी० दधीच (सं० 10316) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-9-86

के० सी० होला (सं० 10326) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—17-9-86

पी० के० देसाई (सं० 10087) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—18-9-86

एस० एन० कार (सं० 10083) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—27-9-86

आर० पी० नवर (सं० 10853) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—01-10-86

ए० सुद (सं० 10081) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—01-10-86

आर० खोवर (सं० 10073) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—05-10-86

के० वी० राव (सं० 10086) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)—17-10-86

एन० यू० के नायर (सं० 10085) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी) 01-11-86

डी० डी० आनन्द (सं० 10079) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी) 01-11-86

सी० पी० चौधरी (सं० 8844) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—02-11-86

जी० आर० शारदा (सं० 10282) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—06-11-86

ओ० पी० महाजन (सं० 10368) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-11-86

एस० इक्ष्वाकु लोपचा (सं० 10366) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—15-11-86

पी०एस० मोदी (सं० 10375) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—16-11-86

पी०के० अटरी (सं० 10376) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---
26-11-86

एम०आर० नायक (सं० 10364) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---
28-11-86

एच०आर० पारथासारथी (सं० 10705) वैमा० इंजी०
(इलैक्ट)---29-11-86

आर० पी० गोयल (सं० 10283) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---
30-11-86

ए०के० धरम (सं० 10718) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---
01-12-86

जे० पी० गुलाटी (सं० 10281) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---
01-12-86

एस०पी० सिंह (सं० 10699) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---
01-12-86

एल० एन० नारायणन (सं० 6819) वैमा० इंजी०
(यांत्रिकी)---01-12-86

पी०एस० चाहिल (सं० 7059) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---
01-12-86

पी० सी० पांडे (सं० 7308) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---
01-12-86

एन०के० मोहारिर (सं० 7354) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---
01-12-86

एन०के० महारिषी (सं० 7628) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)
11-12-86

पी०आर० गुप्ता (सं० 7615) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---
16-12-86

के० वी० व्यास (सं० 7629) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---
16-12-86

आर० पंडित, सहायक निदेशक ।

उड़ान शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमांडर के रैंक में

वी० जी० शिंदे (सं० 9791), उड़ान (प०)--दिनांक
30-8-1985 ।

इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर
पी०एस०सचदेवा(9883)3 (नेवी) तथा ओ० पी० डिमूजा
(9819) उड़ान (प०), के बीच में प्रकाशित होगा ।

के० सी० कुरुविला (10862), उड़ान (प०)
20-7-1986 ।

ए० डी० करानदीकार (10865) उड़ान (प०)
20-7-1986 ।

डी० एस० ग्रेवाल (10866) उड़ान (प०)
20-7-1986 ।

वी० के० खन्डेलवाल (10876) उड़ान (नेवी)-
20-7-1986 ।

एम० टी० एस० बारन (10868) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

ओ० पी० शर्मा (10869) उड़ान (प०)--दिनांक
20-7-1986 ।

एम० के० पंत (10872) उड़ान (प०)--20-7-86 ।

एच० पी० एस० सिन्धु (11051), उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

एस० एस० नावर्कनी (देहान्त) (10905) उड़ान (प०),
20-7-1986 ।

पी० सी० चोपड़ा (10883), उड़ान (प०)
20-7-1986 ।

बी० भुर्कनी (10885) उड़ान (प०)
20-7-1986 ।

ए० डी० जोशी (10886) उड़ान (प०)--20-7-1986 ।

बी० पशुपती (10887) उड़ान (प०)--20-7-1986 ।

एम० सी० वला (10888) उड़ान (प०)--20-7-86 ।

आर० परसुरमन (10919) उड़ान (नेवी)---
20-7-1986 ।

ए० के० बरहमवार (10889) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

वी० के० भाटिया (10892) उड़ान (प०)--दिनांक
20-7-1986 ।

के० जे० मधु (10894) उड़ान (प०)--20-7-1986 ।

आर० वी० फड़के (10895) उड़ान (प०)--20-7-86

एस० एम० घोष (10896) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

पी० डी० अया सिंह (10923) उड़ान (नेवी) (प०)-
20-7-1986 ।

एम० जवई अली (10898) उड़ान (प०)--20-7-86

ए० डी० टैम्पलटन (10900) उड़ान (प०)--20-7-86

एस० डी० मकाशीर (10904) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

आर० सी० अग्रवाल (10906) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

वी० के० जिंदल (10907) उड़ान (प०)--20-7-1986

आर० एम० चोमा (10926) उड़ान (नेवी)--
20-7-1986 ।

डी० दशरथी (10908) उड़ान (प०)--20-7-1986 ।

आर० वी० कुमार (10918) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

के० के० नायडू (10924) उड़ान (प०)-
20-7-1986 ।

विनीत महाजन (10925) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

एस० एन० बाल (10940) उड़ान (प०)--दिनांक
20-7-1986 ।

ए० जी० चिनी (10959) उड़ान (नेवी)--
20-7-1986 ।

एस० के० बनर्जी (10941) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

सुबीर मित्रा (10953) उड़ान (प०)
20-7-1986 ।

एन० सी० जैन (अवकाश प्राप्त) (10963) उड़ान
(प०) 20-7-1986 ।

आर० एस० ग्रेवाल (10982) उड़ान (नेवी)
20-7-1986 ।

के० एस० सेठ (10967) उड़ान (प०)-- 20-7-86
टी० के० मित्रा (अवकाश प्राप्त) (10970) उड़ान
(प०)-- 20-7-1986 ।

एन० पलटा (10977) उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

एम० डी० करभारी (अवकाश प्राप्त), (10980),
उड़ान (प०) 20-7-1986 ।

बी० डी० गुप्ता (10996) उड़ान (नेवी)--
20-7-1986 ।

एस० के० गुप्ता (10983) उड़ान (प०)-- 20-7-86 ।

एम० घोष (10989) उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

बी० कौल (10992) उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

एच० आर० सेठ (10993) उड़ान (प०)-- 20-7-86 ।

कमल नाथ (11001) उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

बी० एन० बोस (10997) उड़ान (नेवी)-- 20-7-86 ।

टी० पी० मुल्लापुरी (अवकाश प्राप्त), (11009)
उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

ए० आर० नारंग (11022), उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

के० पी० एन० सिंह (11023) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

एन० एस० श्री वास्तव (11034) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

एस० एस० भट्टी (10945) उड़ान (प०)-- 20-7-86

इरशाद अहमद (11046) उड़ान (प०)-- 20-7-86

एम० डी० बागची (11019) उड़ान (नेवी)--
20-7-1986 ।

आर० आर० राजकुमार (8700) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

बी० सिंह (9557) उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

जे० पी० जोशी (10522) उड़ान (प०)-- 20-7-86 ।

आर० डिमीनटे (10878) उड़ान (प०)-- 20-7-86 ।

डी० एस० गुरम (10916) उड़ान (प०)-- 20-7-86 ।

एच० डी० डालास (अवकाश प्राप्त) (10994) उड़ान
(पी०)-- 20-7-1986 ।

ए० के० सिंह (11005) उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

एस० पी० शाह (11042) उड़ान (प०)-- 20-7-86 ।

डी० भागवत (11274) उड़ान (नेवी)-- 20-7-1986 ।

अरविन्द भट (11271) उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

एच० मसंद (11272) उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

जविन्दर सिंह (11273) उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

महताब राय हांडा (11276) उड़ान (प०)--दिनांक
20-7-1986 ।

जे० एस० गहलावत (11280) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

एम० जी० चौबाल (11282) उड़ान (नेवी)-- 20-7-86 ।

वी० एन० सापरे (11285) उड़ान (प०)--दिनांक
20-7-1986 ।

वी० गोयल (11286) उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

सुरेन्द्र सिंह बैनस (11288) उड़ान (प०)-- 20-7-86 ।

टी० एस० छतवाल (11290) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

पी० वी० घोटगे (11294) उड़ान (प०)-- 20-7-86

आर० एम० बेदी (अवकाश प्राप्त), (11298), उड़ान
(नेवी) 20-7-1986 ।

एस० एस० कालहा (11295) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

जे० ए० ब्रेनजामिन (11296) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

अनिल सिन्हा (अवकाश प्राप्त) (11297) उड़ान
(प०)-- 20-7-1986 ।

जे० एस० गुजराल (11300) उड़ान (प०)--
20-7-1986 ।

आर० के० घोष (11306) उड़ान (प०)-- 20-7-1986 ।

रण निरपिन्दर सिंह (11301) उड़ान (नेवी)--
20-7-1986 ।

बी० मैनन (11307) उड़ान (प०)-- 1-8-1986 ।

एच० एस० कांग (11308) उड़ान (प०)-- 1-8-86 ।

एम० दीक्षित (11309) उड़ान (प०)-- 1-8-86 ।

बीरार आगवा यामास (11311) उड़ान (प०)--
1-8-1986 ।

ए० के० सक्सेना (11312) उड़ान (प०)-- 1-8-1986 ।

के० जेतली (11327) उड़ान (नेवी)-- 1-8-1986 ।

राजेश मोहन (11313) उड़ान (प०)-- 1-8-1986 ।

एस० के० भाटिया (11316) उड़ान (प०)-- 1-9-86 ।

सतिन्दर लाल सूद (11317) उड़ान (प०) - 1-9-1986 ।
 पा० के० बोस (11329) उड़ान (प०) - 1-9-1986 ।
 सी० डॉ० उपाध्याय (11336) उड़ान (प०) - 1-9-1986 ।
 एम० मृताञ्जा श्रवी (11340) उड़ान (प०) - 03-9-1986
 एच० बी० एच० स्टोन (11341) उड़ान (प०) - 06-9-1986
 करनजीत पाल सिंह (11344) उड़ान (प०) - 01-10-1986
 एन० एस० जैन (11349), उड़ान (प०) - 01-10-1986 ।
 तजिन्दर सिंह (11351) उड़ान (प०) - 01-10-1986 ।
 ए० बी० छाया (11360) उड़ान (प०) - 1-11-86 ।
 एम० एम० अन्मारी (11365) उड़ान (प०) - 1-11-1986
 बी० के० टन्डन (11368) उड़ान (प०) - 1-11-1986 ।
 जी० पी० एम० मिथु (11375) उड़ान (प०) - 1-11-1986 ।
 आर० यादव (11354) उड़ान (नेवी) - 1-11-1986 ।
 पी० वी० एस० क्वातरा (11383) उड़ान (प०) - 2-11-1986 ।
 ओ०के०जौली (11384) उड़ान (प०) - 2-11-1986 ।
 भारत राज लोहतिया (11419) उड़ान (प०) - 17-11-1986 ।
 बी० लाधनपाल (11425) उड़ान (प०) - 1-12-1986 ।
 आर० के० बिणनोई (11397) उड़ान (नेवी) - 1-12-1986 ।
 आई० एम० साईमोस (11433) उड़ान (प०) - 1-12-1986 ।
 पी० एच० मेजर (11442) उड़ान (प०) - 1-12-86 ।
 एम० आर० सदगोपन (11445) उड़ान (प०) - 1-12-1986
 एम० जी० कातर (11448) उड़ान (प०) - 16-12-1986 ।
 आर० आई० पीटरस (11452) उड़ान (प०) - 1-1-1987 ।
 के० पी० गुप्ता (6791) उड़ान (नेवी) - 1-1-1987 ।
 पी० एम० सिधु (7807) उड़ान (नेवी) - 10-1-1987 ।
 ए० एस० राय (7822) उड़ान (नेवी) - 24-1-1867 ।
 एन० के० शर्मा (7824) उड़ान (नेवी) - 31-1-1987 ।
 बी० बी० जयचन्द्र (8144) उड़ान (प०) - 31-01-1987 ।

एस० के० ओबराय (8389) उड़ान (प०) - 1-2-87 ।
 एस० एन० हूजा (8470) उड़ान (नेवी) - 5-2-87 ।
 जे० एस० नेगी (8472) उड़ान (नेवी) - 31-3-87 ।
 बी० भट्टाचार्य (8663) उड़ान (प०) - 1-4-1987 ।
 आर० पी० उभियाल (8647) उड़ान (नेवी) - 1-4-1987 ।
 बी० जे० शीन (8722) उड़ान (प०) - 27-4-1987 ।
 ओ० जे० जेवियर (8655) उड़ान (नेवी) - 28-4-87 ।

आर० पंडित,
 सहा० निदेशक० अफ० 2 (ए)

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

एच० एम० मावी (15842) एस० गुलाटी (15835)
 आर० आर० पल्लापरागदा (15841) एस० पी०
 यादव (15840), यू० के० चौधरी (15834), एस० महवी
 (15832) - 30 जून, 1989 ।

परिभारिकी शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

एस० एम० रावत (15347), के० एल० नारंग
 (15348), आर० एस० चौहान (15349), जे० वी० सिंह
 (15350), वाई० के० नेगी (15351), पी० एस० हिल्लन
 (15352), डॉ० एस० विदी (15353), आर० कपूर
 (15354), वी० देवराजन (15355), जी० एस० मूर्ती
 (15356), वी० तिवारी (15357), बी० एम० के० अरोड़ा
 (15359), वी० एस० बीजोय (15360), के० कोरूथू
 (15361), के० एस० एस० मालीमथ (15362), जे० एस०
 ओलिख (15363), आर० के० श्रीवास्तवा (15364), आर०
 महल (15365), आर० एल० कपूर (15366), एम० देगमुख
 (15367), ए० के० डे० (15368), एम० बी० मोहन दास
 (15369), के० के० कुणैया (15425) - 8 जून, 1989 ।

प्रशासन शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

सुधांशु (15333), पी० राघव (15334), ए० सिंह
 (15335), पी० एम० चिटनीश (15336), ए० के० कपूर
 (15337), एस० के० बनर्जी (15338), एम० एस०
 राठी (15339), एस० हरीहरन (15340), एस० एस०
 बाल (15343) एस० पी० सिंह (15345), डॉ० आर०
 नायक (15346) - 8 जून, 1989 ।

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

आर० चड्ढा (14684) - 29 दिसम्बर, 1987 ।

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट की स्ववाङ्मन लीडर के मूल रैंक में
के० के० धीमन (बी०सी०-14457)-- 26 जून, 1989।

परिभारिकी शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट से स्ववाङ्मन लीडर के मूल रैंक में
ए० शुक्ला (14556)-- 13 जून, 1987।

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाइट अफसर से फ्लाइंग लेफ्टिनेन्ट के मूल रैंक में
बी० एम० कन्नूर (18201)-- 17 फरवरी, 1989।

वैमानिक इंजी० (इलेक्ट०) शाखा

फ्लाइट अफसर की फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के मूल रैंक में :
आर० एस० रावत (17832), एन० एन० शरथबाबू
(17830), सी० जे० जेरोमे (17819), डी० एच० गम्भीर
(17836), वाई० हांडा (17821), आर० एन० चटर्जी
(17823), पी० शर्मा (17818), यू० पी० सिंह (17829),
अक्षय कुमार (17837), ए० आर० राव (17822), बी० पी०
एस० तोमर (17831)-- 17 फरवरी, 1989।

परिभारिकी शाखा

फ्लाइट अफसर से फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के मूल रैंक में
एन० सन्न बास (17515), टी० रामपाल (17516),
एस० घोष (17517), पी० एम० नागराज (17518),
एस० के० जैन, (17519), एम० बहुगुणा (17520);
के० पाल (17521), एम० साबूजी (17522), आर० के०
यादव (17523), आर० पी० गेनधारा (17524), जे०
कुमार (17525), एस० चाकको (17526), पी० आर० डे०
पांडुआ (17527), आर० मुखर्जी (17528), के० आर०
रामचन्द्रन (17529), एफ० आर० डंगडंग (17530),
पी० गर्ग (17531), एस० बहीरी (17532),-- 8 जून,
1989।

सं० 1654, दिनांक 16 नवम्बर, 1989 - राष्ट्रपति, निम्न-
लिखित पायलट अफसरों को उनके नाम के सामने दी गयी
तारीख से अल्पकालिक सेवा कमीशन (परखाधीन) छोड़ने की
अनुमति देते हैं तथा उन्हें वा० से० अनुदेश 2/73 के अन्तर्गत
उसी तारीख से स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते
हैं :-

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रिकल)

संजीव कुमार (19060)-- 5 सितम्बर, 1988 से।

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

गिरीश श्रीकांतिह (19100) और लालन कुमार (19118)
-- 5 सितम्बर, 1988 से।

वायु शाखा

सं० 1655 दिनांक 16 नवम्बर 1989-- राष्ट्रपति,
निम्नलिखित अफसर को जिन्हे 5-9-1988 से स्थायी कमीशन
(परखाधीन) प्रदान किया गया था कि पुष्टि करते हैं और वा०
से० से अनुदेश 2/73 को अंतर्गत उन्हें 5-9-86 से कमीशन
की तारीख प्रदान करते हैं। उन्हें उनके नाम के आगे लिखी
तारीख से लाइंग अफसर के मूल रैंक में पदान्त भी किया
जाता है।

वैमानिक इंजी० (इलेक्ट०) शाखा

पायलट अफसर एम० जे० श्याम (19053), जे०
चटर्जी (19015), एस० अभिजीत (19018), एस० के०
पाटानिया (19058), एम० एम० दिल्ली (19025), जे०
एन० वानी (19046), डी० के० शर्मा (19031), ए० के०
अनिल (19043), एस० बी० गांधी (19114),
के० सी० माखनिया (19057), एम० रामशेखर (19045),
पी० चौधरी (19048), वी० रामशेखर (19052),
यू० चावला (19023), आर० मित्तल, (19109), पी०
सी० कश्मिस्ता (19033), एक्स० सिंहल (19062), वी०
एम० अक्रे (19041), वी० मंथन (19056), एम० ए०
बादे (19020) आई० चौधरी (19119), एम० ए०
हुसैन (19107), बी० सिंह (19044), पी० वानखारडे
(19032), आर० एस० के० भाडराव (19037),
एस० वेनुगोपाल (19061), ए० कुमार (19036), एम०
मोदिगल (19017), आर० एच० नारायण (19038),
एम० कुलहरी (19026), एस० सरकार (19054), ए०
मिहल (19028), एन० के० पटेल (19059), बी० जी०
फिलिप (19029), पी० सिंह (19027)-- 5 सितम्बर,
1988 से।

वैमानिक इंजी० (यांत्रिक) शाखा

पायलट अफसर ए० कुमार (19071), जी० एस० शर्मा
(19116), पी० एन० सारिन (19073), एम० के०
श्रीवास्तव (19112), एम० आई० अली (19087);
एस० भटनागर (19066), ए० जैन (19078), एस० वंडन
(19094), जे० सिंह (19081), ए० महता निधिन (19111)
बी० के० त्यागी (19076), आर० एम० चौधरी (19075),
एन० के० गुप्ता (19093), आर० दीवान (19102),
ए० एस० परांजये (19072), एम० वी० पेहनावकर (19113)
ए० डुरेहा (19074), एस० जैन, (19078), सी० एम०
मंगत (19103), एम० एम० कीर्ति (19098), एम० के०
मिशा (19067), ए० एस० खान (19106), एम० कुमार
(19070), एम० अखतर (19083), ए० शुक्ला (19069)
एम० के० यादव (19079), एम० के० शर्मा (19085),
डी० सतपाल (19108), एम० एम० पुराणिक (19115),
एम० वणुगोपालन (19084) एम० कुमार (19080),
आर० रमेश (1988), ए० आर० कौलदे (19101);

ए० के० जसवान (19090), एन० एस० रानवान (19096)
एस० माहा (19091), वी० कुमार (19097), आर०
जनार्दन (19064), पी० एस० बासुकी (19104), वी०
कारनाक (19095) और ए० अरोड़ा (19077)—
5 सितम्बर, 1988 से।

सं० 1656, दिनांक 16 नवम्बर, 1989—राष्ट्रपति, निम्न-
लिखित पायलट अफसरों की उनके नामों के सामने लिखी
तारीख से उनके अन्तिम अल्पकालिक सेवा कर्माशन छोड़ने
की अनुमति प्रदान करते हैं और उन्हें भारत सरकार, रक्षा
मंत्रालय पत्र सं० वा० से० मु०/22258/1/पी०ओ०—3 (ए)/
1611/डी०ओ०ए/डी (एयर-III) तारीख 19 अक्टूबर, 1982
के पैरा 4 तथा वा० से० अनु० 2/73 के पैरा 15 के उपबन्धों
के अन्तर्गत उमी तारीख से स्थायी कर्माशन (परखाधीन)
प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

वाल्टर लूकडो बरधोलोम्यु मैस्करेनहम (19068)—
05 सितम्बर, 1988 से।

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रिकल)

रमेश कुमार मिश्रा (19016), संजय बाहुजा (19021),
और पंकज कुमार सिंह (19051)—5 सितम्बर, 1988
से।

बी० यू० पिल्लै

स्क्वाड्रन लीडर

सहा० निदेशक का अफ० -3 (डी)

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर, 1989

सं० ए-22013/1/88-स्था०-I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय
सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय काडर के निम्नलिखित स्थायी
सहायकों को उनके नामों के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए
अथवा नियमित अधिकारियों के आने तक, इनमें से जो भी
पहले हो, उस तक के लिए वित्त प्रभाग में तदर्थ आधार
पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

नाम	अवधि
1. श्रीमती वीणा वर्मा	1-10-89 से 30-11-89 तक
2. श्री जे० सी० पांडेय	1-10-89 से 30-11-89 तक (26-11-89 के एक दिन के विच्छेद सहित)
3. श्री ए० एन० अग्रवाल	1-10-89 से 30-11-89 तक (9-11-89 से एक दिन के विच्छेद सहित)।
4. श्री सत्य पाल	1-10-89 से 30-11-89 तक
5. श्री सरूप सिंह	1-10-89 से 30-11-89 तक
6. श्री कन्हैया लाल	1-10-89 से 25-10-89 तक

राजन्म मोहन

सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th December 1989

No. 1635, dated 16th Nov. 1989.—On completion of tenure
of deputation/Expiry of leave granted to him the services of
Shri S. K. Vyawahare, Additional Private Secretary to former
Raksha Rajya Mantri (Shri Chintamani Panigrahi) are
placed at the disposal of Ministry of Home Affairs with
effect from the forenoon of 16th November, 1989.

G. B. WADAWADIGI, Under Secy.

5. Shri B. BASAVARAJ, DRDL, Hyderabad—23-4-81
(FN).

6. Shri B. SHIVADAYAL RAO, DRDL, Hyderabad—
31-3-86 (FN).

7. Shri N. RAMA RAO, DRDL, Hyderabad—23-3-81
(FN).

8. Kmr. L. LATHA, DRDL Cell, Bangalore 31-3-81
(FN).

M. L. ARORA, Asstt. Dir. (Pers)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 1636, dated 30th Oct. 1989.—The President is pleased
to make the following appointments :—

The under mentioned individuals to be temporary Scientist
'B' on probation for a period of two years in the Establish-
ment and with effect from the dates shown against their
names :—

1. Shri MATURI CHAKRAPANI, DRDL, Hyderabad—
16-12-87 (FN).

2. Shri DATTAKUMAR BALRAJ PEDRAM, DRDL,
Hyderabad—23-4-86 (FN).

3. Shri N. A. ARUN, DRDL, Hyderabad—7-12-87 (FN).

4. Shri TOLETY SIVA PERRAJU, DRDL, Hyderabad—
20-4-88 (FN).

No. 1637, dated 15th Nov. 1989.—The President is pleased
to make the following appointment :—

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

Shri MARTHA NARSI REDDY, Scientist 'C' (Ad-hoc),
Defence Science Centre, Delhi to be temporary Scientist 'C'
in the same Centre on probation for a period of one year with
effect from 13-2-1989 (FN).

NARSINGH DASS, Asstt. Dir (Per)

No. 1638, dated 23th Nov 1989.—The President is pleased
to make the following appointment.

TERRITORIAL ARMY

Territorial Commission

To be 2/Tt (on probation)

D Shanmuganandam (TA-42034) Engrs, 28 Nov 88.

IID SINHA, Under Secy.

CORPS OF SIGNALS

No. 1639, dated 21st Nov 1989.—The President is pleased to appoint Shri Asim Nag, Lecturer as Assistant Professor in Military College of Telecommunication Engineering, Mhow wef 10 Nov 88 (FN) until further orders.

Shri Asim Nag will be on probation for a period of two years with effect from 10 Nov 88.

No. 1640, dated 21st Nov 1989.—The President is pleased to appoint Shri Ram Prakash Sharma, Lecturer as Assistant Professor in Military College of Telecommunication Engineering, Mhow wef 28 Nov 88 (FN) until further orders.

Shri Ram Prakash Sharma will be on probation for a period of two years with effect from 28 Nov 88.

A DAYAL, Col Dir (Pers)

No. 1641, dated 16th Nov 1989.—The President is pleased to make the following appointment direct as Nb Sub :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

MES MILITARISED CADRE

(To be Nb Sub)

Pramod Kumar (JC-184815Y), 30th July 1987.

HARISH CHANDRA, Under Secy.

HEADQUARTERS A.T.V.P.

No. 1642, dated 16th Nov 1989.—Shri M. J. Arora, Ty Stenographer Grade 'B' is appointed as Officiating Stenographer Grade 'B' on regular basis in AFHQ Stenographers' Service with effect from 27-7-1989 until further orders.

Shri T. P. Chadha, Stenographer Grade 'C' is appointed as Stenographer Grade 'B' (SPA) on temporary basis in AFHQ Stenographers' Service beyond 30-6-1989 for a period upto and including 31-12-1989 or till person from select list becomes available whichever is earlier.

T. S. SIAL, Dy Chief Adm Officer

No. 1643, dated 21st Nov 1989.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Col to be Brig

D. K. Das (MR-1123) AMC/PC, 21-7-88.

UIS BHARGAVA, Maj Gen
Dy DGAFMS

No. 1644, dated 21st Nov 1989.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

MES MILITARISED CADRE

(To be Nb Sub)

Nb Sub Anandjit Singh (JC-123667H), 01st Mar 1989.

Nb Sub Darshan Singh (JC-75948Y), 01st Mar 1989.

Nb Sub Subhley Singh (JC-126985K), 01st Mar 1989.

Nb Sub Sham Singh (JC-125005I), 01st May 1989.

Nb Sub Paul Baskar (JC-125765F), 01st May 1989.

Nb Sub Dhirendra Singh Rawat (JC-123652A), 01st May 1989.

Nb Sub Mohd Mobin Khan (JC-123598X), 01st May 1989.

Nb Sub Sarvaloga Meyyalagan (JC-124999Y), 01st May 1989.

Nb Sub Medavarpur Kurma Rao (JC-125000A), 01st May 1989.

Nb Sub Buta Ram (JC-123592W), 01st May 1989.

Nb Sub Ketambadi Uthaiiah Ravindraiah (JC-123655N), 01st May 1989.

Nb Sub Perma Nand (JC-125786X), 01st May 1989.

Nb Sub B. Kadlappa (JC-64234L), 01st May 1989.

Nb Sub Subhash Chandra Ganpat Kale (JC-65607A), 01st May 1989.

Nb Sub Joginder Singh (JC-74918P), 01st May 1989.

Nb Sub Suriya Bali Singh Yadav (JC-74923A), 01st May 1989.

Nb Sub Vasant Patil (JC-77564H), 01st May 1989.

(To be Sub)

Nb Sub Nazar Singh (JC-79166A), 01st May 1989.

Nb Sub Santokh Singh (JC-125764Y), 01st June 1989.

Nb Sub Jagdish Kumar (JC-123653H), 01st June 1989.

Nb Sub Kannimuthu Selvanathan (JC-123579M), 01st June 1989.

Nb Sub Chanan Singh (JC-125001H), 01st June 1989.

Nb Sub Subramanian Valiathra (JC-123642W), 01st June 1989.

Nb Sub Nalluveedu Parameswaran Chandrasekhara Kurup (JC-123636H), 01st June 1989.

Nb Sub Honamappa Hulagappa Managuli (JC-65815P), 01st June 1989.

Nb Sub S. Thangarajan (JC-81496X), 01st June 1989.

Nb Sub S. Narayana Pillai (JC-86334W), 01st June 1989.

Nb Sub Yashwant Hunure (JC-93098H), 01st June 1989.

Nb Sub Ram Dhan (JC-95490F), 01st June 1989.

Nb Sub Dumon Singh (JC-93658K), 01st June 1989.

Nb Sub Parmal Singh (JC-93057Y), 01st June 1989.

Nb Sub Udham Singh (JC-84588P), 01st June 1989.

Nb Sub Boppana Sambasiva Rao (JC-95777Y), 01st June 1989.

Nb Sub Bachana Ram (JC-74169K), 01st May 1988.

Bengal Engineer Group

To be Sub Maj

Sub Gardev Singh (JC-84508M), 01 Jun 89.

Sub Pradip Kumar Chaudhary (JC-84026X), 01 Jul 89.

To be Sub Maj Cik (GD)

Sub Cik (GD) Amar Singh (JC-78395Y), 01 Jun 89.

Sub Cik (GD) Nirmal Singh (JC-77951X), 01 Aug 89.

To be Sub (GD)

Nb Sub Ram Anil Singh (JC-140938L), 01 Feb 89.

Nb Sub Trilochan Singh (JC-140939N), 01 Feb 89.

Nb Sub Sunder Tal (JC-142126W), 01 Mar 89.

Nb Sub Phujan Singh (JC-140945P), 01 Mar 89.

Nb Sub Prithi Chand (JC-140982P), 01 Apr 89.

Nb Sub Shyam Singh (JC-140906N), 01 May 89.

Nb Sub Mansa Ram (JC-140967H), 01 Jun 89.

Nb Sub Jagdish Singh (JC-142123H), 01 Jun 89.
 Nb Sub Hareharan Singh (JC-142127Y), 01 Jun 89.
 Nb Sub Pri am Singh (JC-140983X), 01 Jun 89.
 Nb Sub Ganesh Chand (JC-140952X), 01 Jun 1989.
 Nb Sub Ram Bilash Prasad (JC-142125N), 01 Jun 89.
 Nb Sub Jawahar Singh (JC-140988W), 01 Jul 89.
 Nb Sub Dalip Singh (JC-140968I), 01 Jul 89.
 Nb Sub Devi Din (JC-142157W), 01 Jul 89.
 Nb Sub Krishna Nand (JC-140953A), 01 Jul 89.
 Nb Sub Major Singh (JC-140962F), 01 Jul 89.
 Nb Sub Bakshish Singh (JC-142121X), 01 Jul 89.
 Nb Sub Jagdev Singh (JC-140975Y), 01 Jul 89.
 Nb Sub Darshan Singh Sandhu (JC-140909W), 01 Aug 89.
 Nb Sub Gurdyal Singh (JC-140954H), 01 Aug 89.

To be Sub Cik (GD)

Nb Sub Cik (GD) Jadab Chandra Bairaji (JC-119822F), 01 Mar 89.
 Nb Sub Cik (GD) Jasmer Singh (JC-116302X), 01 May 89.
 Nb Sub Cik (GD) Dinesh Chandra Pant (JC-116164P) 01 May 89.
 Nb Sub Cik (GD) Raj Kumar Deo (JC-121146W), 01 May 89.
 Nb Sub Cik (GD) Jee Lal Ram (JC-116396N), 01 Jun 1989.
 Nb Sub Cik (GD) Indra Nand Singh (JC-116391P), 01 Jun 89.
 Nb Sub Cik (GD) Inderjit Rai (JC-119828H), 01 Jun 89.
 Nb Sub Cik (GD) Sabhapati Tripathy (JC-121120F), 01 Jun 89.
 Nb Sub Cik (GD) Bala Ram Chandra Das (JC-121155X), 01 Jun 89.
 Nb Sub Cik (GD) Gulsan Kumar (JC-121147Y), 01 Jul 89.
 Nb Sub Cik (GD) Prithi Singh (JC-119824N), 01 Jul 89.
 Nb Sub Cik (GD) Ram Rattan Singh Negi (JC-105525 H), 01 Aug 89.
 Nb Sub Cik (GD) Ulfat Singh Chauhan (JC-121149K), 01 Aug 89.
 Nb Sub Cik (GD) Shubh Narain Singh (JC-122809H), 01 Aug 89.
 Nb Sub Cik (GD) Hem Raj (JC-121118A), 01 Aug 89.

To be Sub Svy

Nb Sub Svy Bishwa Nath Singh (JC-145642Y), 01 Jun 89.
 Nb Sub Svy Balbir Singh (JC-154141Y), 01 Jun 89.
 Nb Sub Svy Ishwar Dayal Singh (JC-156632M), 01 Jun 89.
 Nb Sub Svy Govind Ram (JC-119820W), 01 Jul 89.
 Nb Sub Svy Lakshmi Narayan Parmanik (JC-159382M), 01 Aug 89.

HARISH CHANDRA, Under Secy.

Corps of Signals

To be Sub Maj (Y of S)

Sub Suraj Bhan Tyagi (JC-73813Y), 1st Sep 1989.
 Sub Rattan Chaud (JC-73818X), 1st Sep 1989.

To be Sub Maj (F of S)

Sub Charan Dass Saini (JC-73846K), 1st Sep 1989.
 Sub Pritam Singh (JC-79623H), 1st Sep 1989.
 Sub Keshav Deo Sharma (JC-79626W), 1st Sep 1989.

To be Sub Maj (Op Ciph)

Sub Palacode Rama Swamy Seshadri (JC-71792P), 1st Jun 1989.
 Sub Kultar Chand Katoch (JC-71793X), 1st Sep 1989.
 Sub Shankar Tiwari (JC-71802N), 1st Sep 1989.

To be Sub Maj (Op Spec)

Sub Ram Charitra Mehta (JC-107167F), 1st Sep 1989.

To be Sub Maj (Clk GD)

Sub Ram Gopal Tripathi (JC-87147K), 1st Sep 1989.
 Sub T D George Kutty (JC-88985L), 1st Sep 1989.

T. B. NAIR, Desk Officer

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

MES MILITARISED CADRE

(To be Sub Maj)

Sub Gurbux Ram (JC-54033Y), 01st May 1989.
 Sub Abdul Rahman Abdul Muthaliff (JC-86394L), 01st May 1989.
 Sub Santokh Singh (JC-80187H), 01st May 1989.
 Sub Datla Kanaka Raju (JC-54357K), 01st June 1989.
 Sub Asservadam Hoodala John Wilson (JC-54880P), 01st June 1989.
 Sub Hari Onkar Kalia (JC-63738M), 01st June 1989.
 Sub Darya Singh (JC-42572H), 01st June 1989.
 Sub Shivkant Mishra (JC-79942P), 01 June 1989.
 Sub Vasudevan Nair MR (JC-79305Y), 01st June 1989.
 Sub Vylal Prem Mohan (JC-79313X), 01st June 1989.
 Sub Pandurang Gawas (JC-61107L), 01st June 1989.

Bengal Engineer Group

To be Sub Maj

Sub Atma Singh (JC-83194K), 01 May 89.
 Sub Trilok Singh Bisht (JC-83201P), 01 May 89.
 Sub Dina Nath (JC-83197X), 01 May 89.
 Sub Nand Kishore (JC-84567K), 01 May 89.

To be Sub Svy

Nb Sub Svy Satya Nandan Prasad (JC-101533K), 01 Feb 89
 Nb Sub Svy Gajendra Singh (JC-142232P), 01 Mar 89.
 Nb Sub Svy Ajit Singh (JC-101534H), 01 Apr 89.
 Nb Sub Jai Narain Singh (JC-142236L), 01 May 89.

Bombay Engineer Group

(To be subedar Major GD)

Sub Narayan Palande (JC-82396L) 1st May 1989.

(To be Subedar CLK GD)

Nb Sub Rama Nand (JC-79296H) 1st Nov 1988.
 Nb Sub Janak Raj (JC-91725L) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Tarsem Singh (JC-119383N) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Gurdial Singh (JC-114212I) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Makhan Singh (JC-121044A) 1st Apr 1989.

(To be Subedar GD)

Nb Sub Rattan Singh (JC-111646A) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Gautam Chand (JC-111647H) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Vyankatrao Nalawade (JC-111669F) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Krishna Jadhav (JC-111648L) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Bajirao Shinde (JC-119373X) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Shivaji Powar (JC-119374A) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Sawan Singh (JC-111670W) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Sucha Singh (JC-111649N) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Inder Singh (JC-114209L) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Balu Patil (JC-111672F) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Budh Singh (JC-114265K) 1st Apr 1989.

(To be Subedar Major Clk GD)

Sub Jit Singh (JC-82511N) 1st Apr 1989.
 Sub Gangadharan Nair C (JC-84127L) 1st May 1989.
 Sub Ravindran Nathan Nair (JC-84128N) 1st May 1989.
 Sub Sopan Jadhav (JC-84797F) 1st May 1989.
 Sub Joginder Singh (JC-84129W) 1st May 1989.
 Sub Lal Chand (JC-84130L) 1st May 1989.

HARISH CHANDRA, Under Secy

REGIMENT OF ARTILLERY

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR (CLERK GD/SKsT)

Sub Kuthirodan Dhananjayan (JC-99578H) 1st Aug 1989.
 Sub Rai Singh Yadav (JC-99582L) 1st Aug 1989.
 Sub Sarbjit Narain Parashar (JC-98989P) 5th Sep 1989.
 with National Seniority 1st Aug 1989.
 Sub Sardar Singh Balwan (JC-102985Y) 1st Aug 1989.

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (CLERK GD/SKsT)

Nb Sub Atma Singh Grewal (JC-136771P) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Prem Chand (JC-136692A) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Nanjan Chettiar Sundaram (JC-136693H) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Kunwar Bahadur Singh (JC-136772X) 1st Aug 1989.
 Nb Sub U Chinnappa (JC-139207L) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Tulshi Pradhan (JC-136694L) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Shankar Devaji Patil (JC-134777X) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Samuel Moses (JC-134778A) 1st Aug 1989.
 Nb Sub PN Sukumaran Nair (JC-134779H) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Jagmal Singh (JC-136774H) 1st Aug 1989.
 Nb Sub V Sayanna (JC-136775L) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Meethala Oravamkara Damodaran Nair (JC-136776N) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Daulat Ram (JC-136778Y) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Jagdev Singh (JC-136779F) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Bhawani Singh Rathore (JC-136781Y) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Bali Ram Singh (JC-136782F) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Vijay Singh Verma (JC-134780X) 1st Aug 1989.
 Nb Sub CV Alexandar (JC-132647W) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Chandra Deo Yadav (JC-139208N) 1st Aug 1989.

Nb Sub Gopala Pillai (JC-139209W) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Paras Ram (JC-139211N) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Moonam Padiyan Gopala Krishnan (JC-1399212W) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Radha Krishnan Nair (JC-139213Y) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Kozhichathodiyil Prabhakaran (JC-139214F) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Harbans Singh Thiara (JC-139215K) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Rangasamy Naiker Savari Rajan (JC-139216M) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Satya Narain Singh (JC-139219A) 1st Aug 1989.
 Nb Sub Pazhampallil Kunjan Panicker Gopinatha Pillai (JC-139221X) 1st Aug 1989.

T. B. NAIR
Desk Officer

REMOUNT VETERINARY CORPS

To be Nb Ris

Dir (Rdr) Shivnandan Singh (No 7236391M Now RV-7678W) * Aug 89.

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 24 Jun 89 without effect on pay and allowances).

Dfr (Clk George KT (No 723622P Now RV-7679Y) 01 Aug 89.

Dfr (Dsr) Barat Singh (No 7236319W Now RV-7680N) *09 Aug 89.

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 89 without effect on pay and allowances).

Dfr (Dsr) Dewan Chand (No 7236268N Now RV-7681W) 01 Aug 89.

Dfr (Dsr) Ram Awadh Yadav (No 7236597K Now RV-7582Y) 01 Aug 89.

ANIL KUMAR, Under Secy

Corps of Engineers

Bombay Engineer Group

(To be Subedar Major Clk GD)

Sub Mohinder Singh (JC-84131N) 1st June 1989.
 Sub Yash Pal (JC-87003F) 1st June 1989.
 Sub Nachhatter Singh Birdi (JC-86375A) 1st June 1989.

(To be Subedar GD)

Nb Sub Kaur Singh (JC-108214A) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Dharam Singh (JC-111638F) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Nilkanth Dange (JC-111652N) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Parkash Singh (JC-116364L) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Dilbagh Singh (JC-116432N) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Sadhu Singh (JC-116433W) 1st May 1989.
 Nb Sub Dilbagh Singh (JC-116434Y) 1st June 1989.
 Nb Sub Ramachandra Barge (JC-119786P) 1st June 1989.
 Nb Sub Inderjit Singh (JC-119787K) 1st June 1989.

(To be Subedar Clk GD)

Nb Sub Tara Singh Bagria (JC-99442Y) 1st Apr 1989.
 Nb Sub Dattatray Dhokale (JC-121048W) 1st May 1989.
 Nb Sub Keshav Vidhate (JC-121087P) 1st May 1989.
 Nb Sub Wasdev Singh (JC-124299L) 1st May 1989.

Nb Sub Sadhu Singh (JC-124394X) 1st June 1989.

(To be Subedar SKT)

Nb Sub Jagir Singh Gill (JC-124382II) 1st June 1989.

MADRAS ENGINEER GROUP

To be Sub Maj Clks

Sub Clk Mahavan Nair Chandrasekharan Nair (JC-69146 Y) 10 May 89.

Sub Clk C Rangaswami (JC-62738A) 01 Jul 89.

Sub Clk Ananthappa Alagarsamy (JC-63072Y) 01 Jul 89.

Sub Clk Natuvazbiparampil Augusty Joseph (JC-66969 N) 01 Jul 89.

Sub Clk Thecke Paryathu Gopala Pillai Raveendran Pillai (JC-66972N) 01 Jul 89.

To be Sub Maj GD

Sub GD Kandan (JC-66213M) 01 Apr 89.

Sub GD A Anandan (JC-76815P) 01 Jul 89.

To be Sub Maj SKT

Sub SKT Krishna Pillai Gopinadhan Pillai (JC-96624F) 01 Jul 89.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Kathan Mariappan (JC-116338K) 01 Jul 89.

To be Sub GD

Nb Sub GD Mujeeb Sahib (JC-128716K) 01 Jun 89.

Nb Sub GD Abraham (JC-142307A) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Jacob Mudali David (JC-123001K) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Mariappa Jeyarama Krishnan (JC-129008K) 01 Jul 89.

Nb Sub GD R Radhakrishnan (JC-128706A) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Kesavapillai Soman Nair (JC-130014F) 01 Jul 89.

Nb Sub GD G Mani (JC-128667M) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Madari Velayudhan (JC-133424L) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Raju Nayagar Shanmugam (JC-128670M) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Mapranathkaran Ouseph George (JC-128671P) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Karuvankot Thodiyil Padmanabhan (JC-128673A) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Kalaimani (JC-128674II) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Lakshmanan Pillai Thiruvazha Marbha Pillai (JC-128676N) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Selvamani (JC-128677W) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Natesan Sundaramoorthy (JC-128678Y) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Arokiaswamy Thirusiluvai (JC-128720M) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Robert Raju (JC-128721P) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Vadivelu (JC-128722X) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Gabriel Iassac (JC-128681Y) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Kanda Subramaniam Chandrasekaran (JC-128724H) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Achuthan Nair Ramakrishnan (JC-128682 F) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Vellakaran Jaganathan (JC-128683K) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Antony Swamy (JC-128723L) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Govindaraju (JC-128726N) 01 Jul 89.

Nb Sub GD Ramgounder Doraiswamy (JC-130515K) 01 Jul 89.

Sub Clk Kozamkandathu Valiyaveetil Krishnan Kutty Nair (JC-67626K) 01 Apr 89.

Sub Clk SS Arumuga Perumal (JC-67627M) 01 Apr 89.

Sub Clk Valiyaveetil Pappu George (JC-69179K) 01 May 89.

Sub Clk Nandagopalan Jayaraman (JC-78337P) 01 May 89.

Sub Clk Ravindran (JC-80156II) 01 May 89.

Sub Clk Mudavathayil Mohamedali (JC-80159H) 01 May 89.

Sub Clk Cheilayya Joseph (JC-82373X) 01 Jun 89.

Sub Clk Rangadoss (JC-81870P) 01 Jun 89.

Sub Clk Srirangam Venkata Subbarao (JC-81855A) 01 Jun 89.

To be Sub Maj GD

Sub GD Padinjarekara Manhachery Lakshmanan Adiyody (JC-68240W) 01 May 89.

To be Sub Clks

Nb Sub Clk Ponnuswamy Subramanian (JC-99584W) 01 Mar 89.

Nb Sub Clk Velayudhan Pillai Ramakrishna Pillai (JC-101072L) 01 Apr 89.

Nb Sub Clk Achan Kuzju (JC-101303W) 01 May 89.

Nb Sub Clk Periasamy Adaikkan (JC 102308F) 01 May 89.

Nb Sub Clk Viswanathan Nair (JC-119794A) 01 May 89.

Nb Sub Clk Gangannagi Chengappa (JC-102307Y) 01 May 89.

Nb Sub Clk Neelakantan Raghavan (JC-116553Y) 01 Jun 89.

Nb Sub Clk Kadirvel Pillai Samikannu (JC-116354F) 01 Jun 89.

Nb Sub Clk Kanniyoth Govindan Kutty (JC-116355K) 01 Jun 89.

Nb Sub Clk Padmanabha Panicker Madhava Kurup (JC-116356M) 01 Jun 89.

To be Sub GD

Nb Sub GD Chellan Perumal (JC-121310N) 01 Nov 88.

Nb Sub GD M Satyanarayana (JC-121305H) 01 Nov 88.

Nb Sub GD Rama Reddy Vasudeva Reddy (JC-127287F) 01 Apr 89.

Nb Sub GD Kuttala Menatha Achuthan (JC-129727H) 01 Apr 89.

Nb Sub GD Voyalola Narasimhulu (JC-126306P) 01 Apr 89.

Nb Sub GD Sellan Ramasamy (JC-126307X) 01 Apr 89.

Nb Sub GD Unnikrishnan Oorali (JC-129003I) 01 Apr 89.

Nb Sub GD Nandi David (JC-129737M) 01 Apr 89.

Nb Sub GD Muniratnam Ramamoorthy (JC-129004N) 01 May 89.

Nb Sub GD Krishna (JC-129739X) 01 May 89.

Nb Sub GD Gangadharan (JC-129005W) 01 May 89.

Nb Sub GD S Rangaraj (JC-129740M) 01 May 89.

Nb Sub GD Alagarsamy (JC-129741P) 01 May 89.

Nb Sub GD Narayanan Nair Ramakrishnan Nair (JC-128703H) 01 May 89.

Nb Sub GD Parappa Managuli (JC-129006Y) 01 May 89.

Nb Sub GD Vandikaran Nayagam Vanathiyan (JC-129007F) 01 May 89.

Nb Sub GD Rahiman Baig (JC-128704P) 01 May 89.
 Nb Sub GD Daniel John Kunju (JC-129746N) 01 May 89.
 Nb Sub GD Devassy Poulo (JC-130513Y) 01 May 89.
 Nb Sub GD Goddety Solomon Dharma Raju (JC-129747W) 01 Jun 89.
 Nb Sub GD Pilavullathil Bharathan (JC-129748Y) 01 Jun 89.
 Nb Sub GD Duraisami Kotbandapani (JC-129749F) 01 Jun 89.

Bengal Engineer Group

To be Nb Sub

Hav Lalita Prasad (No. 1402502L now JC-184742X), 24 Oct 88.^a
 Hav Kuldip Singh (No. 1449521F now JC-184743A), 22 Oct 88.^a
 Hav Ishwar Singh (No. 1450553W now JC-184744H), 24 Oct 88.
 Hav Ranbir Singh (No. 1449982N now JC-184745L), 31 Oct 88.^b
 Hav Parnam Singh (No. 1451187K now JC-184746N), 01 Nov 88.^a
 (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 88 without effect on pay and allowances).
 Hav Jagdish Ram (No. 1451195H now JC-184747W), 07 Jan 98.^a
 Hav Kalyan Singh (No. 1451354P now JC-184748Y), 06 Feb 89.^a
 Hav Hira Lal (No. 1451417M now JC-184749F), 26 Dec 88.^a
 Hav Kalap Nath Singh (No. 1451343H now JC-184750W), 03 Jan 89.^a
 Hav Balwan Ram (No. 1450843M now JC-184751Y), 20 Jan 89.^a
 Hav Darwan Singh (No. 1402638P now JC-184752J), 22 Dec 88.^a
 Hav Set Bandhu Chaubey (No. 1451139K now JC-184753K), 01 Jan 89.^a
 Hav Mani Ram (No. 1401010L now JC-184754M), 14 Jan 89.^a
 Hav Mohan Chandra (No. 1402260N now JC-184755P), 12 Jan 89.^a
 Hav Ambar Bahadur Thapa (No. 1403353P now JC-184756X), 11 Feb 89.^a
 Hav Gorakh Singh (No. 1450168M now JC-184757A), 18 Mar 89.^a
 Hav Shari Ram (No. 1450796F now JC-184758H), 13 Jan 89.^a
 Hav Bhawan Singh (No. 1450925W now JC-184759L), 28 Dec 88.^a
 Hav Raghbir Singh (No. 1451222P now JC-184760A), 26 Jan 89.^a
 Hav Ram Pyare Singh (No. 1451278H now JC-184761H), 30 Dec 88.^a
 Hav Khyali Datt Joshi (No. 1451303F now JC-184762L), 22 Dec 88.^a
 Hav Virendra Singh (No. 1451539W now JC-184763N), 26 Dec 88.^a
 Hav Gopal Saran Singh (No. 1451547P now JC-184764W), 27 Dec 88.^a
 Hav Chandrika Prasad Singh (No. 1451637W now JC-184765Y), 31 Dec 88.^a
 Hav Sita Ram (No. 1443610K now JC-184766F), 07 Jan 89.^a
 Hav Puran Singh (No. 1402781P now JC-184767L), 22 Dec 88.^a

Hav Vinod Prasad (No. 1402709L now JC-184768M), 29 Dec 88.^a
 Hav Gurbax Singh (No. 1402720K now JC-184769P), 30 Dec 88.^a
 Hav Sunder Singh (No. 1402757L now JC-184770K), 27 Dec 88.^a
 Hav Nirmal Chandra (No. 1402729Y now JC-184771M), 27 Jan 89.^a
 Hav Khub Ram (No. 1050672A now JC-184772P), 31 Dec 88.^a

Hav Prahlad Kumar Singh (No. 1451866P now JC-184773X), 23 Dec 88.^a
 Hav Nagin Chandra Talkadar (No. 1451803Y now JC-184774A), 22 Dec 88.^a
 Hav Shri Niwas Upadhyay (No. 1402802M now JC-184775H), 05 Jan 89.^a
 Hav Narayan Datt Tiwari (No. 1442229K now JC-184776L), 26 Dec 88.^a
 Hav Jai Singh (No. 1442794F now JC-184777N), 22 Jan 89.^a

^a(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 88 without effect on pay and allowances).

Hav Dal Bahadur Chand (No. 1443844P now JC-184778W), 28 Feb 89.^a

Hav Subodh Chandra Juyal (No. 1450788M now JC-184779Y), 31 Mar 89.^a

Hav Rajendra Pal Singh (No. 1457300K now JC-184780N), 28 Mar 89.^a

Hav Ram Saroop (No. 1451335W now JC-184781W), 31 Mar 89.^a

Hav Sujan Singh (No. 1444137W now JC-184782Y), 30 Mar 89.^a

Hav Tara Chand (No. 1445987M now JC-184783F), 06 Apr 89.^a

Hav Ganga Datt (No. 1446024M now JC-184784K), 11 Mar 89.^a

^a(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 89 without effect on pay and allowances).

Hav Jaswant Singh (No. 1401908M now JC-184785M), 30 Mar 89.^a

Hav Khatak Singh (No. 1401931A now JC-184786P), 31 Mar 89.^a

Hav Bhan Dev (No. 14402184M now JC-184787X), 03 Apr 89.^a

Hav Hamek Singh (No. 1454095H now JC-184788A), 28 Mar 89.^a

Hav Shangar Singh (No. 1449942K now JC-184789H), 31 Mar 89.^a

^a(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 89 without effect on pay and allowances).

Hav Daya Shankar Singh (No. 1440888A now JC-184790X), 28 Mar 89.^a

Hav Amar Singh (No. 1401611L now JC-184791A), 31 Mar 89.^a

Hav Bhrigu Nath Singh (No. 1444933Y now JC-184792H), 28 Mar 89.^a

Hav Subodh Naran Singh (No. 1401980H now JC-184793L), 31 Mar 89.^a

Hav Hira Ballabh (No. 1402017W now JC-184794N), 28 Mar 89.^a

Hav Piara Singh (No. 1402551N now JC-184795W), 01 Mar 89.^a

^a(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 89 without effect on pay and allowances).

Hav Diwan Singh (No 1447944W now JC-184796Y) 03 Apr 89.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 89 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Ashok Sabrol (No 1449101F now JC-184797F) 21 Oct 88.

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 88 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Avtar Singh (No 1540108Y now JC-184798K) 07 Mar 89." "

Hav Clk Rohtash Singh (No 1449222X now JC-184799M) 19 Nov 88." "

" "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 88 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Surinder Chnd (No 1449007K now JC-184800W) 30 Jan 89.% %

Hav Clk Nand Kishore Singh Yadav (No 1449326K now JC-184801Y) 21 Jan 89.% %

Hav Clk Prema Nanda Dey (No 1449345P now JC-184802F) 03 Dec 88.% %

Hav Clk Shesh Ram Premi (No 1449329X now JC-184803K) 27 Dec 88.% %

Hav Clk Naurang Lal (No 1449284H now JC-184804M) 20 Feb 89.% %

% % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 88 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub SKT

Hav SKT Singhasan Singh (No 1448414N now JC-184805P) 09 Jan 89.@ @

Hav SKT Shiv Nath Singh (No 1448812P now JC-184806X) 06 Feb 89.@ @

Hav SKT Shamsher Singh (No 1448852W now JC-184807A) 09 Feb 89.@ @

Hav SKT Suraj Bham (No 1449108L now JC-184808H) 03 Feb 89.@ @

Hav Nitya Nand Singh (No 1447946F now JC-184809L) 26 Feb 89.@ @

@ @ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 88 without effect on pay allowances).

To be Nb Sub Clk (Store)

Hav Clk (Store) Lakshmi Singh (No 1442310W now JC-184810A) 12 Feb 89.£ £

Hav Clk (Store) Sukhdev Sharma (No 1447150L now JC-184811H) 28 Feb 89.£ £

£ £ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 88 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Svy

Hav Svy Baldev Singh (No 1449373F now JC-184812L) 15 Mar 89.& &

Hav Svy Bachan Pal Singh (No 1448867Y now JC-184813N) 24 Feb 89.& &

& & (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 89 without effect on pay and allowances).

Hav Svy Lachman Singh (No 1449062M now JC-184814W) 01 Mar 89.** *

** * (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 89 without effect on pay and allowances)

MES MILITARISED CADRE

(To be Nb Sub)

Hav Gopalan Ramachandran Nair (1356429W now JC-184816F) 10th Apr 1989.*

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th July 1988 without effect on pay and allowances).

MADRAS ENGINEER GROUP

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav/Clk (GD) Raveendaran Ramakrishnan (No 1351750W) now JC-184817K) 01 Dec 88.

Hav/Clk (GD) Kandasamy Chinnappah (No 1352307P now JC-184818M) 11 Dec 88.*

Hav/Clk (GD) Guduru Vara Prasada Rao (No 1351081N) now JC-184819P) 01 Dec 88.

Hav/Clk (GD) Muthusamy Kandasamy (No 1352582P now JC-184820K) 01 Nov 88.

Hav/Clk (GD) Rentala Manikya Rao (No 1351501L now JC-184821M) 01 Nov 88.

Hav/Clk (GD) Prabhakara Vadakkadathu Gopalakrishna Kurup (No 1350382A now JC-184822P) 19 Nov 88.

Hav/Clk (GD) Murugappan Shanmugam (No 1350677W) now JC-184823X) 19 Nov 88.

Hav/Clk (GD) Karikattu Abraham Jacob (No 1350738H) now JC-184824A) 19 Nov 88.

Hav/Clk (GD) Balan Poyyakkara (No 1350271H now JC-184825H) 19 Nov 88

Hav/Clk (GD) Plamkootathil Krishna Kaiml Gopianthan Pillai (No 1350740A now JC-184826L) 01 Dec 88.

Hav/Clk (GD) Maruthappan Swaminathan (No 1350799A) now JC-184827N) 01 Dec 88.

Hav/Clk (GD) Alfred D'Souza (No 1350864P now JC-184828W) 01 Dec 88.

Hav/Clk (GD) Arava Venkappa (No 1351453H now JC-184829Y) 01 Dec 88.

Hav/Clk (GD) Perumal Kandan (No 1351513M now JC-184830N) 01 Dec 88.

Hav/Clk (GD) Mudi Reddy Venkatadri (No 1351538Y now JC-184831W) 01 Dec 88.

Hav/Clk (GD) Katti Kotrappa Veera Sangappa (No 1352265N now JC-184832Y) 06 Dec 88.@

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav/Clk (GD) Makani Nandakumar (No 1352548P now JC-184833F) 01 Dec 88.

To be Nb Sub SKT

Hav/SKT Krishnavelat Murugesan (No 1353093W now JC-184834K) 05 Oct 88.

*(Accelerated promotion and granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 88 without effect on pay and allowances).

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 Dec 88 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav GD Seethal Jayavelu (No 1352871K now JC-184835M) 01 Sep 88.

Hav GD Appavoo Manoharan (No 1353539A now JC-184836P) 23 Sep 88.*

Hav GD V Velayudam (No 1360522P now JC-184837X) 08 Jan 89.%

Hav GD Panduru Suribabu (No 1352820W now JC-184838A) 09 Dec 88.%

Hav GD G Ashok Kumar (No 1352954P now JC-184839H) 01 Nov 88.

Hav GD Sigireddy Janardhana Rao (No 1358957Y now 184840X) 01 Nov 88.%

Hav GD Vechikkadu Kurian Pailo (No 1355312L now JC-184841A) 13 Jan 89.%

Hav GD Kocha Subair Kutty (No 1355382K now JC-184842H) 01 Dec 88.%

Hav GD Santhakumar T (No 1361754A now JC-184843L) 01 Jan 89.?

Hav GD Chellapan Nair Madhusoodhan Kurup (No 1355370P now JC-184844N) 01 Dec 88.

Hav Dabadaka Joyappa Ponnappa (No 1357196M now JC-184845W) 01 Dec 88.

Hav GD Santhanam Arputham (No 1354952H now JC-184846Y) 01 Dec 88.

Hav GD M Muniswamy (No 1356971M now JC-184847F) 01 Dec 88.

Hav GD A Martin (No 1356997F now JC-184848K) 06 Jan 89. ?

Hav GD Chenna Reddy Veera Sankara Rao (No 14521566A now JC-184849M) 14 Feb 89. ?

Hav GD Murthi (No 1358277Y now JC-184850F) 01 Dec 88.

Hav GD A Raman (No 1359184W now JC-184851K) 16 Jan 89.

Hav GD Sreedharan M (No 1358452H now JC-184852M) 30 Dec 88. ?

Hav GD Plavadi Narayanan Nair Vikraman Nair (No 1356008N now JC-184853P) 01 Dec 88.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 88 without effect on pay and allowances).

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 88 without effect on pay and allowances).

?(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 88 without effect on pay and allowances).

Bombay Engineer Group

To be Nb Sub (Clk Stores)

Hav (Clk Store) Tirath Singh (No 1535643P now JC-184854X), 10th Jan 1989.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1988 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Shri Chand (No 1537003K now JC 184855A), 7th Mar 1989.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1988 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT) Lehmer Singh (No 1536800H now JC 184856-H), 1st Mar 1989.**

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1989 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Mohinder Ram (No 1533705L now JC 184857L), 16th Jan 1989.*

Hav (Clk GD) Ganga Singh Bhati (No 1541116K now JC 184858N), 25th Jan 1989.*

Hav (Clk GD) Munshi Singh (No 1540432W now JC 184859W), 10th Mar 1989.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1988 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Sat Pal Sandhu (No 1540450Y now JC-184860L), 1st Feb 1989.**

Hav (Clk GD) Jasmal Singh (No 1540461L now JC 184861N), 29th Mar 1989.**

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1988 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Balbir Singh (No 1540475L now JC 184862W), 2nd Feb 1989.***

Hav (Clk GD) Ram Gopal (No 1540469X now JC 184863-Y), 9th Feb 1989.***

Hav (Clk GD) Ram Bahadur (No 1540602P now JC 184864F), 13th Feb 1989.***

Hav (Clk GD) Byas Ji Misra (No 1540661F now JC 184865K), 7th Mar 1989.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1989 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Baldev Singh (No 1538647W now JC 184866M), 2nd Feb 1989.***

Hav (Clk GD) Mohinder Singh (No 1540592W now JC 184867P), 2nd Feb 1989.***

Hav (Clk GD) Pushpal Singh Bhatia (No 1540532F now JC 184868X), 28th Feb 1989.****

Hav (Clk GD) Jagdish Chand Sharma (No 1540562Y now JC 184869A), 4th Mar 1989.****

**** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1989 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav GD Jagdale Joti Sahebrao (No 1541454F now JC 184870P), 16th Dec 1988.*

Hav GD Keshav Pawar (No 1565521A now JC 184871X), 21st Jan 1989.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1988 without effect on pay and allowances).

Hav GD Sohan Singh (No 1565634H now JC 184872A), 24th Dec 1988.**

Hav GD Karna Bahadur Chand (No 1541016Y now JC 184873H), 14th Jan 1989.**

Hav GD Nasar Ahmad, (No 1533727K now JC 184874L), 19th Jan 1989.**

Hav GD Gurmel Singh (No 1539957N now JC 184875N), 21st Jan 1989.**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1988 without effect on pay and allowances).

Hav GD Alladin Khan (No 1538878M now JC 184876W), 17th Feb 1989.***

Hav GD Pal Singh (No 1565672Y now JC 184877Y), 17th Feb 1989.***

Hav GD Hira Singh (No 1538643A now JC 184878F), 20th Feb 1989.***

Hav GD Raj Singh (No 1539108M now JC 184879K), 20th Feb 1989.***

Hav GD Harbhajan Singh (No 1539142M now JC 184880-Y), 21st Feb 1989.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1989 without effect on pay and allowances).

Hav GD Mungatram Kenjale (No 1565630M now JC 184881F), 11th Feb 1989.****

Hav GD Vilas Surve (No 1539532P now JC 184882K), 13th Feb 1989.****

Hav GD Pritam Singh (No 1541205H now JC 184883M), 18th Feb 1989.****

Hav GD Dalbir Singh (No 1538059H now JC 184884P), 20th Feb 1989.****

Hav GD Arjun Prasad (No 1539757X now JC 184885X), 20th Feb 1989.****

Hav GD Kamrul Hasan Khan (No 1565530F now JC 184886A), 20th Feb 1989.****

**** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1989 without effect on pay and allowances).

HARISH CHANDRA, Under Secy

No. 1645, dated 24th November 1989.—Consequent upon expiry of period of appointment, Smt. PREETI CHANDRA, Lecturer (Japanese), School of Foreign Languages, Ministry of Defence, is struck off strength with effect from 20-10-89 AN.

T S SIAL, Dy. Chief Admn. Officer

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT

ORGANISATION

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

No. 1646, dated 15th November 1989.—Consequent on attaining the age of superannuation Shri S. S. Phansalkar, Scientist 'C', Explosives Research & Development Laboratory, Pune retired from service with effect from 30-9-1989 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 01-10-1989 (FN).

NARSINGH DASS, Assit. Director (Pers)

No. 1647, dated 24th November 1989.—The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service with effect from the dates noted against them on attaining the normal age of retirement :—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

- Lt Col Prithvi Nath (IC-8575K), Sikh, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col Ved Parkash (IC-10170X), Sikh, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col RR Jadhav (IC-18604F), GR, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col SB Khanka (IC-18839N), Jak Rif, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) DB Phadkar (IC-12495K), GR, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) Gurdev Singh (IC-14589M), Punjab, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) TS Gill (IC-18049Y), Punjab, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) DS Birhman (IC-18089A), Jak Rif, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) Baldev Singh (IC-18879P), Punjab, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) PL Sharma (IC-20494W), Guards, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) Gurdial Singh (IC-22150W), Grenadiers, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) AS Kohli (IC-12492W), Punjab, 31 Mar 89 (AN).
 Col MG Shindolkar (IC-15183Y), AOC, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col Rajni Kant Atrey (IC-8578X), AOC, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) JS Bedi (IC-11979X), EME, 31 Mar 89.
 Lt Col (TS) KL Vedehra (IC-13870W), EME, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col VS Shukia (IC-21412P), EME, 31 Mar 89 (AN).
 Maj JS Nehra (IC-22912Y), AOC, 31 Mar 89 (AN).
 Col GR Bhardwaj (IC-15383P), Sigs, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) DM Rai (IC-15773X), Sigs, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) KNPB Nair (IC-21400A), AFC, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) Shri Krishna (IC-22492K), Int Corps, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) RN Rabeja (IC-22497H), AFC, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) Chandrasekharan Nair, Vrc (IC-22552N), AFC, 31 Mar 89 (AN).
 Col KS Nandal (V-146N), RVC, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col KC Bali (IC-15237P), ASC, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) PS Jaspotia (IC-15226H), ASC, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) Sitaram (IC-15315F), ASC, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col Dharam Singh (IC-15332F), ASC, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) KN Rajput (IC-18575X), ASC, 31 Mar 89 (AN).
 Col Narendra Singh (IC-12852F), Arty, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col Pullu Singh (IC-15588K), Arty, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col VPK Nair (IC-18926F), Arty, 31 Mar 89 (AN).
 Col J Kol (IC-11913F), Angrs, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) MN Dutt (IC-11634W), Arty, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) VK Bhardwaj (IC-21935N), Arty, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) AS Yadav (IC-11629L), Arty, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) DS Uppal (IC-15598N), Arty, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) Trivedi (IC-12184W), Engrs, 31 Mar 89 (AN).
 Maj JK Phukan (IC-18937N), Arty, 31 Mar 89 (AN).
 Col PV Chopra (IC-8430Y), Engrs, 31 Mar 89 (AN).
 Col V Krishna Rao (IC-13103), Engrs, 31 Mar 89 (AN).
 Col SP Sharma (IC-10051F), Arty, 31 Mar 89 (AN).
 Col CSP Krishnan Nair (IC-1136W), APTC, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col Dharam Pal Singh (SL-1308A), QM, 31 Mar 89 (AN).
 Maj Dharam Pal (SL-1830H), Sigs, 31 Mar 89 (AN).
 Maj PJ Oommen (SL-1845L), QM, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) DR Katoch (SL-1413W), RO, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col (TS) SR Kolhatkar (SL-1964F), RO, 31 Mar 89 (AN).
 Maj LN Datta (SL-1871M), Engrs, 31 Mar 89 (AN).
 Maj Shankar Dass Sayal (SL-1908H), QM, 31 Mar 89 (AN).
 Maj VD Mohan (SL-1947F), Engrs, 31 Mar 89 (AN).
 Maj Konda Venkata Koteswara Rao (SL-2207Y), RO, 31 Mar 89 (AN).
 Maj Tara Chand (SL-2262P), APTC, 31 Mar 89 (AN).
 Lt Col JES Wadhwa (IC-85981), Kumaon, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col DS Sachar (IC-10448N), Jak Rif, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col Dharam Pall (IC-10484Y), Guards, 30 Apr 89 (AN).
 Col PS Sidhu (IC-11692A), Sikh J.I, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col Krishan Chand (IC-20150X), Jak Rif, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col Sukhi Chand, SC (IC-12530F), Raj Rif, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col Pirthi Singh (IC-13896L), Jat, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col (TS) Narinder Singh (IC-10572P), Rajput, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col (TS) VK Koul, SC (IC-11642P), Bihar, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col (TS) Prem Singh (IC-12006N), Jat, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col (TS) Gurdial Singh (IC-13974X), Jak Rif, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col PS Walia (IC-14526X), Dogra, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col (TS) JN Sharma (IC-15991W), 4 GR, 30 Apr 89 (AN).
 Lt Col (TS) Darya Singh (IC-18106P), Sikh, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) Inder Singh (IC-20714P), Dogra, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) RK Malhotra (IC-21078Y), Mahar, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) PVR Raja (IC-21431A), Madras, 30 Apr 89 (AN).

Col TN Mehta (IC-13850H), EME, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col INS Mayuranatha (IC-20954M), AOC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col M Vikraman Nair (IC-14119P), AOC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col SK Kaul (IC-20202H), AOC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) JS Wadhawa (IC-22621Y), AOC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) Tek Chana Sharma (IC-14982H), AOC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) SS Dhillon (IC-20067A), AC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) Karnail Singh (IC-14882X), EME, 30 Apr 89 (AN).

Col TS Kohli (IC-12005L), Sigs, 30 Apr (AN).

Lt Col JS Kandah (IC-21785H), Sigs, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) SR Yadav (IC-20474-H), Int Corps, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) Raghunath Shinde (IC-15299P), ASC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) AS Sidhu (IC-22519W), ASC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col BL Sachdeya (IC-10511X), ASC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col Singh Mohkam (IC-20615M), ASC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col Hurcharan Singh (IC-18753P), ASC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col MS Sahdra (IC-21469K), ASC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) Kishanpal Singh (IC-15353X), ASC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) BS Sandhu (IC-18977P), ASC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) Abikuty Kaliyadan (IC-15303M), ASC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col P Dyes (IC-18365X), Arty, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col R Chandrasekaran (IC-20433Y), Arty, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col JS Tilsli (IC-21692M), Arty, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col Omkar (IC-22067Y), Arty, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) Harbans Singh (IC-15593P), Arty, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) Iqbal Singh (IC-18920A), Arty, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) Manmohan Singh (IC-21116K), Arty, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) RP Sharma (IC-21432H), Arty, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) Teja Singh (IC-22347M), Arty, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col (TS) DS Ahuja (IC-21264P), Arty, 30 Apr 89 (AN).

Maj TL Nayyar (IC-22678N), Arty, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col P Achuthan (SL-1397K), RO, 30 Apr 89 (AN).

Maj AS Sidhu (SL-1443N), RO, 30 Apr 89 (AN).

Maj KS Sumant (SL-1661M), 30 Apr 89 (AN).

Maj Ch.orthodh Venugopal (SL-1945Y), Engrs, 30 Apr 89 (AN).

Capt KR Chaudhary (SL-2308M), Sigs, 30 Apr 89 (AN).

5—374 GI/89

Lt Col (TS) DR Sachdev (IC-20840F), ASC, 31 Mar 89 (AN).

Lt Col (TS) RL Arya (IC-15276N), ASC, 31 Mar 89 (AN).

Lt Col (TS) OC Sharma (IC-15319X), ASC, 31 May 89 (AN).

Maj MK Pential (IC-22217K), ASC, 31 May 89 (AN).

Lt Col (TS) HS Braich (IC-22315K), ASC, 31 May 89 (AN).

Col Man Singh (IC-15323A), ASC, 31 May 89 (AN).

Lt Col (TS) LM Gladstone (IC-14091A), 31 May 89 (AN).

Lt Col (TS) GK Malik (IC-18618F), ASC, 31 May 89 (AN).

Lt Col (TS) Mohan Singh (IC-18732Y), ASC, 31 May 89 (AN).

Lt Col (TS) VJ Kharod (IC-13851L), Engrs, 30 Jun 88 (AN).

SK KAUSHAL, Col
Col MS Retirement & Release

No. 1648, dated 21st November 1989.—The President is pleased to retire the undermentioned officer on attaining the age of superannuation :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

Lt Col PK Hazra (MR-1018), AMC/PC, 30 June 89 (AN).

Lt Col KL Kachroo (NTR-16176), AMC/NT, 31 May 89 (AN).

Lt Col HS Jhala (NTR-16110), AMC/NT, 31 Mar 89 (AN).

Lt Col Batwant Singh (NTR-16060), AMC/NT, 30 June 89 (AN).

No. 1649, dated 21st November 1989.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service at his own request for compassionate reasons and transfer him to Regular Reserve of Officers (Class 'X') :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Col S Chakravorty (MR-1607), AMC/PC, 15 June 89 (AN).

Lt Col RK Garg (MR-3258), AMC/PC, 4 Sep 89 (AN).

Lt Col SD Vachharajani (MR-2318), AMC/PC, 30 June 89 (AN).

Lt Col JJS Bhalla, VSM, MC (MR-3275), AMC/PC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Col RK Tiwari (MR-2081), AMC/PC, 5 Apr 89 (AN).

Lt Col VA Phadke (MR-2031), AMC/PC, 2 Jul 89 (AN).

Lt Col K Kumar (MR-1486), AMC/PC, 31 May 89 (AN).

US BHARGAVA, Maj Gen
Dy DGAfMS

(NAVY BRANCH)

No. 1650, dated 20th November 1989.—The President is pleased to appoint Shri Ramnath, Assistant Naval Store Officer, as Naval Store Officer with effect from 01 August, 1989 (Forenoon).

DILIP KUMAR, Dy. Dir. of Personnel

(AIR BRANCH)

No. 1651, dated 16th November 1989.—The President is pleased to grant of Short Service Commission (on probation) in the rank of Pilot Officers to the undermentioned, under the provisions of AFI 2/73 :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)

Sanjeev Kumar (19060) w.e.f. 07 Sep 87.

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

Grish Srikantiah (19100) w.e.f. 07 Sep 87 and
Lalan Kumar (19118) w.e.f. 28 Sep 87.

No. 1652, dated 23-11-1989.—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned in the rank of Pilot Officer under the provisions of AFIs 20/76, 28/76 and AFI (Corrigendum) 7/78 and 13/81 :—

INDIAN AIR FORCE

Administrative Branch

(Ex-Airmen Cadet to be Pilot Officer)

635900 CPL Gangadharan Nair HARIHARAN (19472)
wef 17Dec 88.

B U PILLAY, Sqn Ldr
ADPO3 (D)

No. 1653, dated 23rd Nov 1989.—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE

EDN Branch

Sqn Ldr to be substantive Wg Cdr

K K Vasisht (9361), 31-8-85.

His name will appear between Wg Cdr U B M Bhamidi-Pati (9357) Edn and DD Deshpandey (9374) Edn in the gradation list.

O M Pande (9171), 01-2-87.

Z S Malhotra (9342), 01-1-88.

U K Baisya (9372), 31-1-88.

S P Raghuvanshi (9373), 01-7-88.

U Punnoose (9904), 01-7-88.

S C Agnihotri (9926), 01-7-88.

G K Nigam (9928), 01-9-88.

P C Tripathi (9930), 01-2-89.

V B Subramaniam (10292), 01-3-89.

K S Anand Rao (10340), 31-3-89.

P Vyas (10342), 01-4-89.

A C Roy Choudhury (6660), 11-4-89.

T S Dhami (8351), 01-5-89.

AE Branch

Sqn Ldr to be substantive Wg Cdr

V S Sharma (6849) AE(L), 01-3-86.

His name will appear above Wg Cdr AS Thandi (6840) AE(L) in the gradation list.

S V Vaidya Nathan (Reid) (9149) AE(M), 26-8-86.

H Pal (Retd) (8260) AE(L), 26-8-86.

S P Padmanabhan (8272) AE(M), 26-8-86.

V K Kapoor (8251) AE(M), 26-8-86.

S C Singh (8517) AE(L), 26-8-86.

L G Singh (8514) AEL), 26-8-86.

Ravi Chandran (8516) AE(L), 26-8-86.

R C Singh (9598) AE(L), 26-8-86.

V S Mall (Retd) (9602) AE(L), 26-8-86.

U Suley (8223) AE(L), 28-8-86.

A U Muduidri (8811) AE(M), 29-8-86.

S R Rao (8799) AE(L), 01-9-86.

R K Sethi (8007) AE(M), 09-9-86.

J K Jain (7963) AE(L), 15-9-86.

National seniority from 06-6-86 and his name will appear between Wg Cdrs Iqbal Singh (8801) AE(L) and A Sankaran (7991) AE(M).

V N Bansal (Retd) (7994) AE(M), 15-9-86.

B R Sehgal (Retd) (9620) AE(M), 15-9-86.

H D Talwani (Retd) (7983) AE(M), 15-9-86.

P S Grover (8238) AE(M), 15-9-86.

Chand Sagar (7987) AE(M), 15-9-86.

S Srinivas Rao (8894) AE(L), 15-9-86.

O P Satheesh (8812) AE(M), 15-9-86.

A Sudhama (9281) AE(L), 15-9-86.

S Jayachandran (7751) AE(L), 15-9-86.

K M Kulkarni (8296) AE(L), 15-9-86.

K S Shab (9279) AE(L), 15-9-86.

M K Seetharamu (8906) AE(L), 15-9-86.

S N Bansal (10356) AE(M), 15-9-86.

C G Krishna (9390) AE(M), 15-9-86.

V H Raju (Retd) 9691 AE(L), 15-9-86.

S Surl (9314) AE(L), 15-9-86.

A M Khanna (8845) AE(L), 15-9-86.

G Venkataraman (Retd) (10675) AE(L), 15-9-86.

H S Abluwalla (10676) AE(L), 15-9-86.

C C James (9957) AE(L), 15-9-86.

R K Bhandari (9947) AE(L), 15-9-86.

P Jagannathan (8920) AE(L), 15-9-86.

N M Naik (Retd), (9952) AE(L), 15-9-86.

R V Shrikhande (10328) AE(L), 15-9-86.

M K Bhattacharya (10317) AE(L), 15-9-86.

V K Tiwari (10319) AE(L), 15-9-86.

H C Daddeech (10316) AE(L), 15-9-86.

K C Hala (10326) AE(L), 17-9-86.

P K Desai (10078) AE(M), 18-9-86.

S N Kar (10083) AE(M), 27-9-86.

R P Nadar (10853) AE(M), 01-10-86.

A Sood (10081) AE(M), 01-10-86.

R Kochhar (10073) AE(M), 05-10-86.

K V Rao (10086) AE(M), 17-10-86.

N U K Nair (10085) AE(M), 01-11-86.

D D Anand (10079) AE(M), 01-11-86.

C B Chowdhury (8844) AE(L), 02-11-86.

G R Sarda (10282) AE(L), 06-11-86.

O P Mahajan (10368) AE(L), 15-11-86.

S W Jeecha (10366) AE(L), 15-11-86.

P S Modi (10375) AE(L), 16-11-86.

V K Atri (10376) AE(L), 26-11-86.

MR Naik (10364) AE(L), 28-11-86.

M R Parthasarathy (10705) AE(L), 29-11-86.

R P Goyal (10283) AE(L), 30-11-86.

A K Dhawan (10718) AE(L), 01-12-86.
 J P Gulati (10281) AE(L), 01-12-86.
 S P Singh (10699) AE(L), 01-12-86.
 L N Narayanan (6819) AE(M), 01-12-86.
 P S Chahil (7059) AE(M), 01-12-86.
 P C Pande (7308) AE(M), 01-12-86.
 N K Moharir (7354) AE(L), 01-12-86.
 N. K. Maharishu (7628) AE(L), 11-12-86.
 P R Gupta (7615) AE(M), 16-12-86.
 K V Vyas (7629) AE(L), 16-12-86.

R PANDIT, Asstt. Dir. of Pca (Officers)
 —2(A)

FLYING BRANCH

Sqn Ldr to be substantive Wg Cdr

V G Shinde (9791) F(P), 30-8-85.

His name will appear between Wg Cdrs P S Sachdeva (9883) F(N) and O P D'crez (9819) F(P) in the combined seniority list.

K C Kuruvilla (10862) F(P), 20-7-86.
 A D Karandikar (10865) F(P), 20-7-86.
 J S Grewal (10266) F(P), 20-7-86.
 V K Khandelwal (10875) F(N), 20-7-86.
 S T S Paran (10869) F(P), 20-7-86.
 G P Sharma (10869) F(P), 20-7-86.
 M K Pant (10872) F(P), 20-7-86.
 H P S Sadhu (11051) F(P), 20-7-86.
 S S Nedkarni (Dred) (10905) F(N), 20-7-86.
 P C Chopra (10883) F(P), 20-7-86.
 B Mukherjee (10885) F(P), 20-7-86.
 A D Joshi (10886) F(P), 20-7-86.
 V Pasupathy (10867) F(P), 20-7-86.
 S C Verma (10888) F(P), 20-7-86.
 R Parasuraman (10919) F(N), 20-7-86.
 A K Brahmawar (10889) F(P), 20-7-86.
 V K Bhatia (10892) F(P), 20-7-86.
 K J Mathew (10894) F(P), 20-7-86.
 R V Phadke (10895) F(P), 20-7-86.
 S M Ghose (10896) F(P), 20-7-86.
 PD Jeya Singh (10923) P(N), 20-7-86.
 P D Jawai Ali (10898) F(P), 20-7-86.
 A D Templeton (10900) F(P), 20-7-86.
 S D Makashir (10904) F(P), 20-7-86.
 R C Agarwal (10906) F(P), 20-7-86.
 V K Jandial (10907) F(P), 20-7-86.
 R S Cheema (10926) F(N), 20-7-86.
 D Dasharathy (10908) F(P), 20-7-86.
 R V Kumar (10918) F(P), 20-7-86.
 K K Naidu (10924) F(P), 30-7-86.
 Vinod Mahajan (10925) F(P), 20-7-86.
 S N Bal (10940) F(P), 20-7-86.
 A G Chitre (10959) F(N), 20-7-86.
 S K Banerjee (10941) F(P), 20-7-86.
 Sublr Mitra (10953) F(P), 20-7-86.
 N C Jain (Retd) (10963) F(P), 20-7-86.
 R S Grewal (10982) F(N), 20-7-86.

K S Seth (10967) F(P), 20-7-86.
 T K Mitra (Retd) (10970) F(P), 20-7-86.
 N Palta (10977) F(P), 20-7-86.
 M D Karbhary (Retd) (10980) F(P), 20-7-86.
 B D Gupta (10996) F(N), 20-7-86.
 S K Gupta (10983) F(P), 20-7-86.
 M Ghosh (10989) F(P), 20-7-86.
 B Kaul (10992) F(P), 20-7-86.
 H R Seth (10993) F(P), 20-7-86.
 Kamal Nath (11001) F(P), 20-7-86.
 B N Bose (10997) F(N), 20-7-86.
 T P Mullapudi (Retd) ((11009) F(P), 20-7-86.
 A R Narang (11022) F(P), 20-7-86.
 K P N Singh (11023) F(P), 20-7-86.
 N N Srivastava (11034) F(P), 20-7-86.
 S S Bhatti (10945) F(P), 20-7-86.
 Irshad Ahmed (11046) F(P), 20-7-86.
 M J Bagchi (11019) F(N), 20-7-86.
 R R Rajkumar (8700) F(P), 20-7-86.
 B Singh (9557) F(P), 20-7-86.
 J P Joshi (10522) F(P), 20-7-86.
 R Demonte (10878) F(P), 20-7-86.
 D S Guram (10916) F(P), 20-7-86.
 H J Dallon (Retd) (10994) F(P), 20-7-86.
 A K Singh (11005) F(P), 20-7-86.
 S P Shab (11042) F(P), 20-7-86.
 D Bhagawat (11274) F(N), 20-7-86.
 Arvind Bhat (11271) F(P), 20-7-86.
 H Masand ((11272) F(P), 20-7-86.
 Jatinder Singh (11273) F(P), 20-7-86.
 Mahtab Rai Handa (11276) F(P), 20-7-86.
 J S Gahlawat (11280) F(P), 20-7-86.
 S G Chaubal (11282) F(N), 20-7-86.
 V N Sopre (11285) F(P), 20-7-86.
 V Goel (11286) F(P), 20-7-86.
 Surinder Singh Bains (11288) F(P), 20-7-86.
 T S Chhatwal (11290) F(P), 20-7-86.
 P V Ghotge (11294) F(P), 20-7-86.
 R S Bedi (Retd) (11298) F(N), 20-7-86.
 S S Kulha (11295) F(P), 20-7-86.
 J A Benjamin (11296) F(P), 20-7-86.
 Anil Sinha (Retd) (11297) F(P), 20-7-86.
 J S Gujral (11300) F(P), 20-7-86.
 R K Ghosh (11306) F(P), 20-7-86.
 Rana Nirpinder Singh (11301) F(N), 20-7-86.
 B Menon (11307) F(P), 01-8-86.
 S S Kang (11308) F(P), 01-8-86.
 M Dikshit (11509) F(P), 01-3-86.
 Veerar Aghava Yaras (11317) F(P), 01-8-86.
 A K Saxena (11312) F(P), 01-8-86.
 K Jaitly (11327) F(N), 01-8-86.
 Rajesh Mohan (11313) F(P), 01-8-86.
 S K Bhatia (11316) F(P), 01-8-86.
 Satinder Lal Sud (11317) F(P), 01-9-86.
 P K Bose (11329) F(P), 01-9-86.
 C D Upadhyaya (11336) F(P), 01-9-86.
 M Murtuza Ali (11340) F(P), 3-9-86.

L E H Stone (11341) F(P), 6-9-86.
 Karamjit Pal Singh (11344) F(P), 01-10-86.
 N S Jain (11319) F(P), 01-10-86.
 Tajinder Singh (11351) F(P), 01-10-86.
 A F Chhaya (11369) F(P), 01-11-86.
 S S Ansari (11365) F(P), 01-11-86.
 V K Tandon (11369) F(P), 01-11-86.
 G P S Sidhu (11375) F(P), 01-11-86.
 R. Yadav (11354) F(N), 01-11-86.
 P P S Kawatra (11383) F(P), 01-11-86.
 C K Joly (11384) F(P), 02-11-86.
 Bharat Raj Lohtia (11419) F(P), 17-11-86.
 B Lakhanpal (11425) F(P), 01-12-1986.
 P K Bishnoi (11397) F(N), 01-12-1986.
 I M Simoes (11433) F(P), 01-12-86.
 P H Major (11442) F(P), 01-12-86.
 M R Sadagopan (11445) F(P), 01-12-86.
 M G Chater (11448) F(P), 16-12-86.
 R I Peters (11452) F(P), 01-01-87.
 K P Gupta (6791) F(N), 01-01-87.
 P S Sidhu (7807) F(N), 10-01-87.
 A S Rai (7822) F(N), 24-1-87.
 N K Sharma (7824) F(H), 31-01-87.
 V B Jaichand (8144) F(P), 31-01-87.
 S K Oberoi (8389) F(P), 01-02-87.
 S N Ruja (8470) F(H), 05-02-87.
 J S Negi (8472) F(N), 31-3-87.
 B Bhattacharyya (8663) F(P), 01-04-87.
 R P Uniyal (8647) F(N), 01-04-87.
 B J Shinh (8722) F(P), 27-04-87.
 O J Zavler (8655) F(N), 28-04-87.

K M DAMODARAN, Asstt. Dir of Pers
 (Officers-2(A))

AE(M) BRANCH

Flt. Lt. to be Subs. Sqn. Ldr.

HS MAVI (15842); S GULATI (15835); RR YELLA-
 PRAGADA (15841); SP YADAV (15840); UK CHOU-
 DHARY (15834); S MEHDI (15832), 30th June, 1989.

LGS BRANCH

Flt. Lt. to be Substantive Sqn Ldr

SS Rawat (15347); KL Narang (15348); RS Chauhan
 (15349); JV Singh (15350); YK Negi (15351); PS Dhillon
 (15352); DS Virdi (15353); R Kapur (15354); V Devarajan

(15355); GS Murti (15356); V Tewari (15357); BMK Arora
 (15359); VS Bejoy (15360); K Koruthu (15361); KSS
 Mallmath (15362); JS Aulikh (15363); RK Srivastava
 (15364); R Bhal (15365); RL Kapur (15366); M Deshmukh
 (15367); AK Dey (15368); MB Mohan Daas (15369); KK
 Krishna (15425) w.e.f. 8-6-89 (08 Jun 89).

ADM BRANCH

Flt Lt. to be Subs. Sqn. Ldr.

SUDHANSHU (15333); P RAGHAV (15334); A SINGH
 (15335); PM CHITNIS (15336); AK KAPUR (15337);
 SK BANERJEE (15338); MS RATHEE (15339); S HARI-
 HARAN (15340); SS BAL (15343); SP SINGH (15345);
 DR NAIK (15346) 08th June, 1989.

F(P) BRANCH

Flt. Lt. to be Subs. Sqn. Ldr.

R. Chadha (14684) w.e.f. 29 Dec. 87.

AE(M) BRANCH

Flt. Lt. to be Subs. Sqn. Ldr.

KK DHIMAN (BC-14457) 26th June, 1989.

LGS BRANCH

Flt. Lt. to be Sub. Sqn. Ldr.

A SHUKLA (14556), 13th June, 1987.

AE(M) BRANCH

FG Offr. to be Subs. Flt. Lt.

BM KANNUR (18201), 17th February, 1989.

AE(L) BRANCH

FG Offr. to be Subt. Flt. Lt.

RS RAWAT (17832); NN SARATHBABU (17830); CJ
 JEROME (17819); DH GAMBHIR (17836); Y HANDA
 (17821); RN CHATTERJEE (17823); P SHARMA (17818);
 UP SINGH (17829); AJAY KUMAR (17837); AR RAO
 (17822); BPS TOMAR (17831); 17th February, 1989.

LGS BRANCH

FG Offr to be Substantive Flt. Lt.

N Sabharwal (17515); T Rampal (17516); S Ghosh
 (17517); PM Nagraj (17518); SK Jain (17519); M Bahuguna
 (17520); K Paul (17521); X Savooji (17522); RK Yadav
 (17523); RP Gaundhar (17524); J Kumar (17525); S Chacko
 (17526); PR De Padua (17527); R Mukherjee (17528);
 KR Ramachandran (17529); FR Dung Dung (17530); P
 Garg (17531) and S. Bahiri (17532) w.e.f. 08 Jun 89.

No. 1654, dated 16-11-89.—The President is pleased to
 permit the undermentioned Pilot Officers to relinquish their
 Short Service Commission (on probation) with effect from
 the dates stated against their names and to grant of Permanent
 Commission (on probation) with effect from the same date
 under AFI 2/73 :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)

Sanjeev Kumar (19060), w.e.f. 05 Sep 88.

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

Girish Srikanthiah (19100) and Lalan Kumar (19118),
 w.e.f. 05 Sep 88.

No. 1655, dated 16-11-89.—The President is pleased to
 confirm the undermentioned officers who were granted Perma-
 nent Commission (on probation) wef 05 Sep 88 and to
 grant of ante-date of commission wef 05 Sep 86 under
 AFI 2/73. They are also promoted to the subs rank of
 Fg Offr wef the dates stated against their names :—

AE(L) Branch

Plt. Offr SJ Thomas (19053); J Chatterjee (19015);
 S Abhijeet (19018); SK Pathania (19058); HS Dhillon

(19025); JN Vani (19046); DK Sharma (19031); AK Jayarajan (19043); SV Gandhi (19114); KC Makhania (19057); M Rajasekar (19045); P Chaudhary (19048); V Rajasekhar (19052); U Chawla (19023); R Mittal (19109); PG Kuruvilla (19033); S Singhal (19062); VM Akre (19041); B Mathews (19056); MA Badhe (19020); I Choudhri (19119); M A Hussain (10107); B Singh (19044); P Wankhade (19032); RSK Bhaurao (19037); S Venugopalan (19061); A Kumar (19036); S Modgil (19017); RL Narayanan (19038); S Kulhari (19026); S Sarkar (19054); A Singhal (19028); NK Patel (19059); BLI Philip (19029); P Singh (19027), wef 05 Sep 88.

AE(M) Branch

Plt Offr A Kumar (19071); GS Sharma (19116); PS Sarin (19073); MK Srivastava (19112); MI Ali (19087); S Bhatnagar (19066); A Jain (19082); S Tandon (19094); J Singh (19081); A Mahalanobis (19111); BM Tayagi (19076); RM Choudhary (19075); NK Gupta (19093); R Diwan (19102); AS Paranjape (19072); SV Pedgaonkar (19113); A Dureha (19074); S Jain (19078); CS Mangat (19105); SM Kini (19098); SK Mishra (19067); AS Khan (19106); S Kumar (19070); S Akhtar (19083); A Shukla (19069); SK Yadav (19079); MK Sharma (19085); D Sitpal (19108); MS Purnik (19115); M Venugopalan (19084); S Kumar (19080); R Ramesh (19088); AR Kohlhe (19101); AK Jaiswal (19090); NS Ranwan (19096); S Saha (19091); V Kumar (19097); R Janardhanan (19064); PS Vasuki (19104); V Karnik (19095); A Arora (19077), wef 05 Sep 88.

No. 1656, dated 16-11-89.—The President is pleased to permit the undermentioned Pilot Officers to relinquish their Provisional Short Service Commission with effect from the date shown against their names and grant them Permanent Commission (on probation) with effect from the same date under the provisions of para 4 of Govt. of India, Min of

Def letter No. Air HQ|22258|1|PO3(A)|1611|DOIA|D(Afr-(H) dated 19 Oct 82 and para 15 of AFI 2/73 :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

Walter Lucdo Bartholomew Mascarenhas (19068) w.e.f. 05 Sep 88.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)

Ramesh Kumar Mishra (19016); Sanjay Bahuja (19021) and Pankaj Kumar Singh (19051) w.e.f. 05 Sep 88.

B. U. PILLAY, Sqn. Ldr.
ADPO-3 (D)

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 24th November 1989

No. A-22013/1/88-Estt.I.—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of the CSS Cadre of the Ministry of Defence as Section Officers on ad-hoc basis in the Finance Division for the periods mentioned against their names or till regular officers become available whichever is earlier :—

Smt. Veena Verma 1-10-1989 to 30-11-1989.

J. C. Pandey 1-10-1989 to 30-11-1989 (with one day's break on 26-11-1989).

A. N. Aggarwal 1-10-1989 to 30-11-1989 with one day's break on 9-11-1989).

Satya Pal 1-10-1989 to 30-11-1989.

Sarup Singh 1-10-1989 to 30-11-1989.

Kanhaya Lal 1-10-1989 to 25-10-1989.

RAJINDER MOHAN,
Assistant Financial Adviser (E)

